

बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फ़ैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित।



दैनिक बुद्ध का संदेश 9795951917, 9415163471 @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com

रविवार, 06 नवंबर 2022 सिद्धार्थनगर संस्करण www.budhakasandesh.com वर्ष: 09 अंक: 316 पृष्ठ 8 आमंत्रण मूल्य 2/-रुपया

लखनऊ सुचीबद्ध कोड- SDR-DLY-6849, डी.ए.वी.पी.कोड-133569 सम्पादक: राजेश शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

महिलाओं के सशक्तिकरण का काम मोदी सरकार में हुआ, नड्डा बोले- केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार जरूरी

शिमला। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बैरना जट्टा, बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा और मोदी सरकार तथा राज्य की जयराम ठाकुर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। अपने संबोधन में नेता ने कहा कि हिमाचल को आज वो मिला, जिसकी लोग कभी कल्पना नहीं करते थे। पहले यहां इलाज के लिए लोग वंचित रह जाते थे। उन्होंने कहा कि आज आपके यहां ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ

मेडिकल साइंसेज है। आज यहां हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आज रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है। गांव-गांव सड़कों का निर्माण हो रहा है।



भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल में आज बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। ये सब डबल इंजन की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं को खाना बनाने के लिए सुबह-सुबह

ने कहा कि पहले सु, बह-सु, बह महिलाएं शौच के लिए खेतों में जाया करती थीं। आज हर घर में शौचालय बन गया है, अब बहनों-माताओं को खेतों में नहीं जाना पड़ता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण का काम मोदी सरकार में हुआ है।

तभी आपका हक मारा गया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आज वो मिला है जिसकी लोग कभी कल्पना नहीं करते थे। पहले यहां इलाज से लोग वंचित रहते थे। आज यहां 17 है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने 75 साल में हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है, जितनी बार पीएम मोदी 6-8 साल में गए? इससे पता चलता है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को कैसे देखा और पीएम मोदी इसे कैसे मानते हैं। केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार जरूरी है ताकि पहाड़ियों में विकास रुके नहीं।

केजरीवाल का बड़ा दावा, बीजेपी ने दिया मुझे ऑफर, गुजरात छोड़ दो, हम सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम संपर्क किया और उन्हें भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए राजी होने के लिए कहा गया। केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सिसोदिया के दावों को दोहराया और कहा कि भाजपा ने सिसोदिया को खिलाफ सभी मामलों को रद्द करने की पेशकश की थी यदि वे आप छोड़ने का निर्णय लेते हैं। आप गुजरात में चुनाव की दौड़ से हट जाती है, तो जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को रिहा कर दिया जाएगा। गुजरात में चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद शनिवार को इंडिया टुडे से बात करते हुए केजरीवाल ने ये दावे किए। आप संयोजक के आरोपों ने दिल्ली शराब घोटाले के संदर्भ में उनके पिछले आरोपों को प्रतिष्ठित वनित किया जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सिसोदिया से




बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उन्हें बीजेपी से हाथ मिलने के फलस्वरूप दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की पेशकश की गई थी। यह बयान तब सामने आया जब केजरीवाल गुजरात में अपनी पार्टी की संभावित जीत की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य को बदलाव की जरूरत है और बदलाव केजरीवाल हैं। उनकी पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री इंसुदान गढ़वी ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में अन्य दलों द्वारा संभावित अवैध शिकार पर सवालों के जवाब दिए।

आजाद भारत के पहले वोटर श्याम सरन नेगी का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, पीएम मोदी ने भी जताया निधन पर शोक

शिमला। भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी का हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में उनके आवास पर 5 नवंबर को निधन हो गया। वह 106 साल के थे। आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ पूरा किया गया। इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर हिमाचल के शोंगटोंग स्थित सतलुज किनारे श्यमशान घाट तक ले जाया गया। जहां होमगार्ड बैंड बजाकर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार के दौरान

काफी भीड़ इकट्ठा थी। किन्नौर पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी के निधन पर शोक जताया। निर्वाचन आयोग ने बताया कि दो दिन पहले नेगी ने 12 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए डक मतपत्र के जरिये अपना वोट डाला था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, आज सुबह जब मैंने दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की, तब मुझे श्याम सरन नेगी के निधन की खबर मिली 106 साल के



नेगी ने अपने जीवनकाल में 30 से अधिक बार मतदान किया था। प्रधानमंत्री ने कहा, अभी कुछ दिन पहले नेगी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए डक मतपत्र के जरिये अपना वोट डाला था। यहां तक कि निधन से पहले भी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के प्रति नेगी का नजरिया देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा, मैं बड़े भारी मन से नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपना सिर झुकाता हूँ



और उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। शनिवार सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेगी के निधन पर शोक जताया। निर्वाचन आयोग ने नेगी के निधन पर शोक जताया और कहा कि उन्हें दो नवंबर को मतपत्र के जरिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने भी नेगी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भाजपा ने कहा, 'भाजपा स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी के निधन पर गहरा दुख एवं संवेदनाएं व्यक्त करती है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें।' कुछ दिन पहले नेगी के मतदान करने के बाद किन्नौर के उपायुक्त ने उन्हें उनके आवास पर सम्मानित किया था।

को वोट करने के लिए प्रेरित किया और अपने निधन से पहले दो नवंबर को मतपत्र के जरिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने भी नेगी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भाजपा ने कहा, 'भाजपा स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी के निधन पर गहरा दुख एवं संवेदनाएं व्यक्त करती है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें।' कुछ दिन पहले नेगी के मतदान करने के बाद किन्नौर के उपायुक्त ने उन्हें उनके आवास पर सम्मानित किया था।

नॉर्थ ईस्ट में मीडिया शिक्षण को बढ़ावा देगा IIMC का आइजोल कैम्पस: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू



आइजोल/नयी दिल्ली। छात्रावास व स्टाफ क्वार्टर के सौभाग्य अलग-अलग प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन हैं। अपनी स्थापना के समय से यह परिसर अंग्रेजी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके लिए अधिकांश छात्र भारत के अन्य हिस्से और कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों से आते हैं। 2022-23 सत्र से आईआईएमसी अपने दो अन्य परिसरों के साथ उत्तर पूर्वी परिसर में डिजिटल मीडिया में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम को शुरू करने जा रहा है। इस पाठ्यक्रम को डिजिटल मीडिया के महत्व और सार्थकता को ध्यान में रखते हुए प्रशु किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) एक प्रमुख पत्रकारिता संस्थान है। 1965 में इसकी स्थापना भारत और अन्य विकासशील देशों में मीडिया पेशेवरों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। उस समय से यह भारतीय सूचना सेवा के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता रहा है। इसके बाद पत्रकारों के लिए एम पी पाठ्यक्रम शुरू किया गया। आईआईएमसी ने देश में मीडिया शिक्षा की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों में 5 क्षेत्रीय परिसरों का विस्तार किया है और उन्हें संस्थागत रूप प्रदान किया है।

हर हफ्ते निकलवाया खून, फिर इससे लिखे गए 605 पन्नें, बगदाद के मस्जिद की तिजोरी में रखी है सद्दाम हुसैन की ब्लड कुरान

किस्सी के लिए आतंक का दूसरा नाम तो किस्सी के लिए मसीहा, सद्दाम हुसैन एक ऐसा विवादित नाम जिसके बारे में कई किस्से और कहानियां मशहूर हैं। 5 नवंबर यानी आज ही के दिन ठीक 17 साल पहले तानाशाह हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फिर दो दशक तक इराक पर हुकूमत करने वाले सद्दाम हुसैन को 30 सितंबर 2006 को फांसी दे दी गई थी। लेकिन सद्दाम हुसैन से जुड़ी कई कहानियां हैं जो वक्त बे वक्त सामने आती रहती हैं। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने अपने 27 लीटर खून से कुरान लिखवाई थी। ब्लड कुरान के नाम से है चर्चित : कॉन



की जीवनी लिखी है, उन्होंने ने भी ब्लड कुरान का जिक्र किया है। ब्लड कुरान के नाम से चर्चित इस कुरान को बगदाद की एक मस्जिद में रखा गया था। बाद में जब साल 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई तो उसके बाद इस कुरान के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया: 1990 के दशक में सद्दाम हुसैन ने अपने खून से कुरान लिखवाया

थी। अंग्रेजी अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार सद्दाम ने अल्लाह के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में दर्ज किया था। इस सभी 605 पन्नों को लेकर देख सके हैं। इसके लिए इन्हें शीशे के कंसे में सजा कर रखा गया था। हर हफ्ते निकलवाता था अपना खून: करीब 2 साल तक सद्दाम हुसैन ने हर हफ्ते अपना खून दिया। इससे लिए वो करीब एक हफ्ते एक नर्स के पास जाकर अपना बाजू पेश करता था। फिर नर्स उसके हाथ से खून निकाल लेती। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 605 कुरान के पन्नों को लिखने के लिए सद्दाम हुसैन ने अपना 24 लीटर खून दिया।



नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय पलीट रिव्यू, मालाबार अभ्यास के उद्घाटन समारोह में भाग लेने और द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को प्रगाढ़ बनाने को लेकर जापान की पांच दिवसीय यात्रा शुरू की। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के दो युद्धपोत शिवालिक और कामोर्टा, रविवार को सागामी खाड़ी में होने वाले अंतरराष्ट्रीय पलीट रिव्यू (आईएफआर) में भाग लेने के लिए योकोसुका पहुंच चुके हैं। आईएफआर की मेजबानी जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर की जा रही है।

नौसेना प्रमुख आर. हरि कुमार पांच दिवसीय जापान यात्रा पर

नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय पलीट रिव्यू, मालाबार अभ्यास के उद्घाटन समारोह में भाग लेने और द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को प्रगाढ़ बनाने को लेकर जापान की पांच दिवसीय यात्रा शुरू की। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के दो युद्धपोत शिवालिक और कामोर्टा, रविवार को सागामी खाड़ी में होने वाले अंतरराष्ट्रीय पलीट रिव्यू (आईएफआर) में भाग लेने के लिए योकोसुका पहुंच चुके हैं। आईएफआर की मेजबानी जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर की जा रही है।

एडमिरल कुमार की पांच से नौ नवंबर तक जापान यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि वह सात और आठ नवंबर को योकोहामा में 18वीं पश्चिमी प्रशांत नौसैन्य संगोष्ठी (डब्ल्यूपीएनएस) में भी भाग लेंगे। भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा, 'आईएफआर और डब्ल्यूपीएनएस के अलावा, वह मालाबार अभ्यास के 2022 संस्करण के उद्घाटन के लिए भी उपस्थित रहेंगे।' अधिकारी ने कहा, 'एडमिरल आर हरि कुमार आईएफआर, डब्ल्यूपीएनएस और मालाबार में भाग लेने वाले करीब 30 देशों के अपने समकक्षों और प्रतिनिधिमंडल के अन्य प्रमुखों के साथ भी बातचीत करेंगे।'

हिन्दी दैनिक बुद्ध का संदेश समाचार पत्र

में सरकारी विज्ञापन, निविदा, अदालती नोटिस, सम्मान, सूचना, टेंडर प्रकाशन के लिए आज ही सम्पर्क करें।

सभी जनपदों से आवश्यकता है पत्रकारों की सम्पादक: दैनिक बुद्ध का संदेश

8795951917, 9453824459

www.budhakasandesh.com E-Mail ID: budhakasandeshnews@gmail.com

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा, मेरे PA को किया गया गिरफ्तार

भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार की राजनीति लगातार जारी है। इन सब के बीच मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट कर बताया कि उनके पीए को गिरफ्तार किया गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि इन्होंने झूठी प्राथमिकी कर मेरे घर रेंड करवाई, बैंक लॉकर तलाश लिए, मेरे गांव में जांच कर ली लेकिन मेरे खट्टिलाफ कहीं कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आज इन्होंने मेरे च. के घर पर ईडी की रेंड करी। वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो अब उसको गिरफ्तार कर के ले गये है। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा वालों! चुनाव में हार का इतना डर। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर को लेकर सिसोदिया ने ट्वीट किया कि डब्लू और गुजरात में बुरी तरह हार के डर से बीजेपी ने तिहाड़ में बंद एक टग से डील की है - वो शेज केजरीवाल जी के खट्टिलाफ बेतुके आरोप लगाएगा और बदले में बीजेपी



उसके केस में उसे मदद करेगी। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के लिए गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया के पीए को किया गया गिरफ्तार

मैंने सुना है अगले हफ्ते उसे नड्डा जी बीजेपी में शामिल करवायेंगे। आपको बता दें कि को लेकर सरकारी जांच एजेंसियां लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। मनीष

जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2019 में 10 करोड़ रुपये वसूले थे। चंद्रशेखर के इस आरोप के बाद आम और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच वाक्युद्ध तेज हो गया है। भाजपा ने दिल्ली की सत्ता पारी आप को 'महा टग' पार्टी करार दिया और आरोप लगाया कि पार्टी ने एक टग से टगी कर ली। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंद्रशेखर के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि यह मरोबी की घटना से ध्यान भटकाने का प्रयास है।

दशरथपुर ग्यासपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष आस्था के पथ पर लाखों श्रद्धालुओं मरम्मत हेतु 61.26 लाख की स्वीकृति ने की पंचकोसी परिक्रमा

–राज्य सड़क निधि से 15 लाख 31 हजार की धनराशि का आवंटन

अयोध्या। उ.प्र. सरकार द्वारा राज्य सड़क निधि से विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत जनपद के दशरथपुर ग्यासपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत कार्य हेतु 61.26 लाख रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। दशरथपुर ग्यासपुर मार्ग के विशेष मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2३ हेतु १0 15 लाख 31 हजार की धनराशि का आवंटन भी कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में प्रमुख अभियन्ता

नियमानुसार जमा कराना भी विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश में यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2023 तक कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाय। उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओंप्रयोजनों के लिये ही स्वीकृतआवटित धनराशि का उपयोग किया जाय। साथ ही जारी शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कार्य हेतु आवंटित

धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशोंध्वापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका में नियमों, स्थाई आदेशों व राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राक्चिाणों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जाय एवं समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जायं तथा विभाग द्वारा वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय।

अयोध्या। देवोत्थानी एकादशी के मुहूर्त में रामनगरी की पंचकोसी परिक्रमा कार्तिक शुक्ल एकादशी के मुहूर्त लगने के साथ रात 8:33 बजे से ही शुरु हो गई थी जो .शांतिपर्ण सम्पन्न हो गयी। आस्था के पथ पर लाखों श्रद्धालु राम नाम जपते हुए पूरे हौसले से आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालुओं के समूह में युवाव और प्रौढ़ लोगों के साथ वृद्ध, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को समस्त मूलभूत सुविधाओं को सुचारु रूप से सुगमता के साथ उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत की गयी तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का परिक्रमा के दौरान विभिन्न स्थलों, मार्गों पर निरन्तर भ्रमणशील रहकर श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो रही सुविधाओं तथा भीड़ नियंत्रण का जायजा लेते रहे तथा विभिन्न स्थलों पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियोंआदि श्रद्दालुओं को प्रशासन की तरफ से उपलब्ा करायी गयी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु

–परिक्रमा के दौरान भ्रमणशील रहे अधिकारी

समय–समय पर निर्देशित करते रहे, जिलाधिकारी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा भी लगातार भ्रमणशील रहे और स्थिति का जायजा भी लेते रहे। जिलाधिाकारी नीतीश कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा द्वारा अपर जिलाधिकारी नगरश्मेलालिाकारी सलिल कुमार पटेल तथा अन्य मजिस्ट्रेट के साथ लता मंगेशकर चौक, नयाघाट, राम की पैड़ी, सरयू आरती स्थल, लक्ष्मण किला घाट, ऋणमोचन घाट, झुनकी घाट, हनुमान गुफा, रामघाट, उदया चौराहे से गैस गोदाम चौराहा, बड़ी बुआ रेलवे क्रासिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के साथ भीड़ नियंत्रण आदि की स्थिति पर लगातार जािला प्रशासन द्वारा की गयी निगरानी रख रहे थे। इस दौरान दोनों अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमणशील रहकर श्रद्धालुओं के लिए की गयी व्यवस्थाओं, शौचालयों के क्रियाच्यवन व उसके साफ सफाई, चिकित्सा उपचार केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं, पेयजल आदि की व्यवस्था को भी देखा गया तथा बेहतर ढंग से समस्त सुविधायें श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो इसके लिए सभी को आवश्यक निर्देश भी दिये गये। इस दौरान जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्युटी पर तैनात सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ शालीन एवं सहयोगात्मक व्यवहार करते हुये अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करने के निर्देश दिये गये। इस दौरान श्रद्धालुओं से भी दोनों अधिकारियों ने उपलब्ध हो रही सुविाकाओं का फीडबैक भी प्राप्त किया। परिक्रमा में आये हुये श्रद्धालुओं द्वारा जिला प्रशासन द्वारा की गयी व्यवस्था एवं उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं की सराहना की।

सीएमओ ने डेंगू वाई का किया निरीक्षण

भर्ती मरीजों व उनके तीमारदारों से ईलाज के बारे में ली जानकारी

अयोध्या। जनपद में डेंगू के नियंत्रण, डेंगू जांच की स्थिति और डेंगू मरीजों के बेहतर ईलाज के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकाारी डॉ अजय राजा ने जिला चिकित्सलय में स्थापित डेंगू वार्ड का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों से और उनके तीमारदारों से उनके ईलाज और बेहतर देखभाल को लेकर बातचीत की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अजय राजा ने मरीजों को बतवाई गई समस्याओं का निराकरण करने के साथ साथ डेंगू मरीजों के ईलाज में लगे चिकित्सक और स्टॉफ को मरीजों के बेहतर ईलाज और देखभाल के लिए निर्देशित किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मरीजों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी संभव बेहतर प्रयास किया जा रहा है और किया जायेगा।किसी को घबराने की कतई जरूरत नही है। डेंगू के लक्षण दिखने पर शुरुआती कदम यदि सिरदर्द,

आँखों के पीछे दर्द, मिचली, उल्टी, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द और शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और जांच कराये प् गंभीर अवस्था में पेट दर्द, तेज सांस, मसूड़ों में खून या खून की उल्टी जैसी समस्या हो सकती है डेंगू का पता लगाने के लिए एलाईजा टेस्ट सबसे सही माना जाता है।

लक्षण के आधार पर डॉक्टर उपचार करते हैं। खूब सारा पानी और ओआरएस पीएं। खाने

किसी भी तरह का पानी जमा न होने दें। कूलर के पानी को रोजाना बदलें और फ्रिज के पानी को हफ्ते में एक बार अवश्य निकाल दें या डिफ्रीज कर दें पानी की टंकी को ढक्कन से ढंक कर रखें। खिड़कियों और दरवाजों में जाली लगावाएं ताकि मच्छर घर के भीतर न आ सकें। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी या स्प्रे आदि का प्रयोग करें।एक्वेरियम, फूलदान आदि में हर हफ्ते पानी बदलें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रभारी सीएमएस डॉ एनपी गुप्ता से डेंगू मरीजों के बेहतर ईलाज कम और महत्त्वपूर्ण दवाओंउ उपकरणों की सतत उपलब्धता बनाए रखने चिकित्सकों और स्टॉफ को मरीजों के ईलाज हेतु गंभीरता से सेवा प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के भ्रमण के साथ प्रभारी सीएमएस डॉ एन पी गुप्ता, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ.राजेश चौहारी, पैथोलॉजिस्ट डा.फुजैल अंसारी, डा. विपिन वर्मा एमम अन्य चिकित्सक ,फार्मासिस्ट, स्टॉफ उपस्थित रहे।

अयोध्या मण्डल में नई इकाईयों के निवेश को लेकर 11000 करोड़ रुपये का लक्ष्य

बेकरी उद्योग, राइस मिल, फ्लोर मिल व हाईफलो बैटरीज में अयोध्या की पहचान

अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को आकर्षित किए जाने के लिए आगामी फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लखनऊ में आयोजित की जायेगी। इसमें अयोध्या मण्डल में नई इकाईयों के निवेश को लेकर 11 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। जनपद अयोध्या की पहचान मूलतः बेकरी उद्योग, राइस मिल, फ्लोर मिल एवं हाईफलो बैटरीज के रूप में है, जबकि जनपद–अमेठी की पहचान अब पोल्ट्री फीड के रूप में हो चुकी है, यहाँ पर पोल्ट्री फीड से सम्बन्धित कई बड़ी इकाईयाँ जैसे मेसर्स जाफा कम्प्रीड इण्डिया प्रा0लि0, मेसर्स सुगुना फूड्स प्रा0 लि0, मेसर्स शालीमार प्लेटेड फीड्स, मेसर्स सल्वा एग्रो हैचरजीज प्रा0लि0 परियोजना से ही कार्यरत है, जबकि मेसर्स स्कॉर्ड लार्क फीड्स प्रा0लि0 अपनी इकाई स्थापित कर रही है तथा कई अन्य छोटी–छोटी इकाईयां भी स्थापित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में मेसर्स ग्रासिम इण्डस्ट्रीज, मेसर्स स्टील आधारटी

ऑफ इण्डिया, मेसर्स भेल कार्यरत हैं। वर्तमान में जनपद अमेठी में जमीनों की कोई कमी नहीं है और रोजगार को बढ़ाने के लिए बन्द पड़ी इकाईयों के अतिरिक्त खाली पड़ी भूमि पर उद्योग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावां पलैटेड फैंक्ट्री निर्माण की भी योजना पर कार्य चल रहा है। ऐसे में अब जनपद के निवेशकों को यूपीसीडा की ओर से आकर्षित करने के प्रयास शुरु किये गये हैं। 11 हजार करोड़ रुपये निवेश के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यालय में निवेशकों की सुविधा एवं सलाह के लिस इन्वेस्टर्स हेल्प् डेस्क की स्थापना की गई है। जनपद अमेठी में 478.71 एकड़ औद्योगिक, 34.64 एकड़ व्यावसायिक और 19.65 एकड़ आवासीय भूमि उपलब्ध है।

सरकार द्वारा निवेशकों को निम्नलिखित लाभ दिये जा रहें है जिसमें एमएसएमई 2022 और टेक्नोइल एवं गारमेन्ट पात्सिरी 2023 के तहत निवेशकों के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं।

स्टाम्प शुल्क में छूट 100 प्रतिशत, विस्तारीकरण एवं विवधिकरण हेतु भी स्टाम्प छूट उपलब्ा, समयबद्ध स्वीकृति, सिंगल विण्डों किलियरेन्स, ईज ऑफ ड्रूईंग विजनेस के तहत प्रक्रियों का सरलीकरण किया गया है। इकाईयों को निवेश के आधार पर चार श्रेणी बनायी गयी। 100 एकड़ से अधिक के निजी औद्योगिक पार्कों पर 50 करोड़ रुपये तक का अनुदान। क्षेत्रीय प्रबन्धक के0ए00 श्रीवास्तव ने बताया कि प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी द्वारा यूपी जीआईएस–2023 के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है और जीआईएस–2023 को सफल बनाने हेतु कार्ययोजना के प्रथम चरण में अधिक से अधिक निवेश बढ़ाने के लिए उद्यमी संगठनों के साथ गोष्ठी के आयोजन की योजना बनाई गयी है। गोष्ठी के माध्यम से सरकार द्वारा जारी नई उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 का प्रचार–प्रसार करते हुये अधिाक से अधिक निवेश आकर्षित किया जायेगा।

साक्षात्कार के माध्यम से कर रहीं स्नेहिल बच्चों का सर्वांगीण विकास

उन्नाव लोग मशहूर हस्तियों का साक्षात्कार लेते हैं , मिशन शक्ति की पोस्टर में सरकार का कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने के सरकारी स्कूल में शिक्षा दे रहीं स्नेहिल पांडेय का कहना है कि सोहरामऊ के बच्चे ही उनके लिए विशेष व्यक्ति हैं, क्योंकि

चोरी से अर्जुन का पेड़ काटने की रिपोर्ट दर्ज

सोहावल–अयोध्या। रौनाही थाना क्षेत्र में 28 अक्टूबर को एन एच 217 पर बाँयी पटरी पर निधि ढाबा के करीब सड़क के किनारे पर स्थित सरकारी अर्जुन के पेड़ को काटने की घटना में वन विभाग टास्क फोर्स के प्रभारी दुर्गा प्रसाद ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी है । बताया कि इस मामले में उन्होंने दो पेड़ काटने के आरोप में दीप राज वर्मा पुत्र हौसिला प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम अरकुना तहसील सोहावल के विरुद्ध रौनाही थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी है । भारतीय के विरुद्ध वन अपराध के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर भारत की नव अधिनियम की 1927 की धारा 30६33 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज कर ली गयी है ।जाँच पड़ताल की जा रही है ।

भारत मिशन के लिए एक कदम बढ़ाते हुए नई विधा से बच्चों को अवगत कराने का कार्य प्रारंभ किया है। ज्ञात हो कि उन्होंने विगत 1 सप्ताह में अब तक 3 बच्चों के साक्षात्कार लिए हैं । और बच्चे बहुत ही मनोरंजक तरीके से और साक्षात्कार को वह शिक्षण का एक अच्छा संप्रेषण माध्यम मानती हैं। इस नवाचार का नाम है स्नेहिल वातावरण में व्यक्तित्व विकास के सत्र।

इस सत्र के अंतर्गत वे लगभग 8 प्रश्नों के काईस बनाती हैं। और छात्र को अपनी बराबरी पर दूसरी कुर्सी पर बैठा कर जैसे विभिन्न चैनलों में साक्षात्कार लिया जाता है उस तरीके का सेटअप तैयार करती हैं। मेज पर फूलदान रखकर ,पीछे बैनर लगाकर ,अन्य बच्चों को सामने बैठा कर लगभग 15 मिनट का इंटरव्यू करती हैं ।

जिसकी विद्यालय में काफी सराहना हो रही है । उनका कहना है कि इस माध्यम से शिक्षा देने में बच्चों के अंदर नई अभिरुचि आती है । और बच्चे बहुत ही मनोरंजक तरीके से इस को एंजॉय करते हुए उत्तर देने के लिए होड़ लगाते हैं। तथा बच्चों की हिचक दूर होती है। उनकी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पाण्डेय हर वर्ष को कोई नई विधा के द्वारा बच्चों को पढ़ाती हैं ।

इसके पहले भी वह गुठली बैंक, तथा पौधा गोद लेने एवं बच्चियों का जन्मदिन मनाने तथा बालिकाओं के दरवाजे पर बच्चियों के नाम की नेमप्लेट लगाने तथा विद्यालय में स्टिकर चिपकाकर अंग्रेजी पढ़ाने आदि नवाचारों को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं ।

मिल्कीपुर–अयोध्या।थाना कोतवाली इनायत नगर क्षेत्र के महुलारा मिचकुरही गांव में शौचालय टैंक बनवा रही महिला को दूसरे गांव से पहुंचे आधा दर्जन दबंगों द्वारा बर्बरता पूर्वक पीटे जाने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि पीड़ित महिला की तहरीर पर इनायतनगर पुलिस ने आधा दर्जन हमलावरों के विरुद्ध मारपीट की गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक

महुलारा मिचकुरही गांव निवासी महिला रिपी पत्नी रामकेवल ने इनायत नगर पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि वह अपन दरवाजे पर शौचालय का टैंक बनवा रही थी उसी समय उनके विपक्षी प्रिंसी पत्नी जगमोहन, नीलम पत्नी राम भगत राम भगत पुत्र जंगली निवासी ग्राम भीमाताली तथा संपू पत्नी श्यामू एवं श्यामू पुत्र सुपारी लाल निवासी ग्राम रेवडा टिकैतनगर जनपद बाराबंकी तथा राजेश पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम छिलबिली गनेशपुर थाना कुमारगंज लाठी डंडा से लैस होकर उनके दरवाजे पहुंच गए थे और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उनकी पिटाई शुरु कर दी थी महिला की गुहार के बाद उपरोक्त लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले थे। पीड़ित महिला रिपी की तहरीर पर प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने उपरोक्त आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट की गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़ित महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है।



सम्पादकीय

केजरीवाल से विपक्ष को फायदा या नुकसान?

इन राज्यों में भाजपा के साथ साथ एक और हिंदू पार्टी की गुंजाइश है। इसके उलट जिन राज्यों में क्षत्रप पार्टियां मजबूत हैं वहां मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है। वहां हिंदू राजनीति करने वाली दूसरी पार्टी के लिए गुंजाइश कम है। यही कारण है कि केजरीवाल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में ...

अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर भाजपा के बाद सबसे ज्यादा जिसकी नजर है वह कांग्रेस पार्टी है। देश की बाकी पार्टियों को उनकी राजनीति से खास मतलब नहीं है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी देश के उन राज्यों में राजनीति नहीं कर रही है, जहां गैर कांग्रेस और गैर-भाजपा दलों की सरकार है। जहां कोई दूसरी प्रादेशिक पार्टी मजबूत है। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के पांचों राज्यों में, जहां भी प्रादेशिक पार्टियां मजबूत हैं और कांग्रेस हाशिए पर है तो वहां केजरीवाल राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए उन राज्यों के नेता केजरीवाल की चिंता नहीं करते हैं। उलट वे भाजपा के खिलाफ विपक्ष की साझा राजनीति में उनकी भूमिका मानते हैं। तभी चंद्रशेखर राव से लेकर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दिल्ली में उनसे मिलते थे। मगर अब इन नेताओं का क्या रुख होगा? यह देखना है। रूप पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने के केजरीवाल के सुझाव के बाद प्रदेशों के क्षत्रप उनके प्रति नजरिया बदल सकते हैं। तथ्य है कि केजरीवाल पहले भी कांग्रेस के लिए सिरदर्द थे और अब भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल का सारा फोकस उन राज्यों पर है, जहां कांग्रेस मजबूत है। जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस को आसान टारगेट माना हुआ है उसी तरह



Arvind Kejriwal

केजरीवाल ने भी कांग्रेस को निशाना बना रखा है। उनको लगता है कि भाजपा जो भी कांग्रेस के खिलाफ करती है कांग्रेस के खिलाफ जो भी नैरेटिव बनाता है तो उसका फायदा आप पार्टी को भी मिल सकता है। केजरीवाल भाजपा की मुहिम और प्रचार के दम पर ही कांग्रेस को निपटा कर उसकी जगह लेने की राजनीति कर रहे हैं। इसी में धीरे धीरे केजरीवाल की हिंदू राजनीति का चेहरा उभरता हुआ है। अगर बारीकी से देखें तो कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है, उनमें से दो-तीन राज्यों को छोड़ दें तो बाकी जगह मुस्लिम आबादी औसत से बहुत कम है। ऐसे राज्यों में केजरीवाल के लिए हिंदू राजनीति करना आसान है। इन राज्यों में भाजपा के साथ साथ एक और हिंदू पार्टी की गुंजाइश है। इसके उलट जिन राज्यों में क्षत्रप पार्टियां मजबूत हैं वहां मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है। वहां हिंदू राजनीति करने वाली दूसरी पार्टी के लिए गुंजाइश कम है। यही कारण है कि केजरीवाल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में राजनीति करने नहीं जा रहे हैं। वे दिल्ली के बाद गुजरात पर ध्यान लगाए हुए हैं। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य उनके निशाने पर हैं। कांग्रेस इन राज्यों में सरकार में है या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी है।

विदेश नीति की दो उपलब्धियां

वेद प्रताप वैदिक
भारतीय विदेश नीति की कल दो उपलब्धियों ने मेरा ध्यान बरबस खींचा। एक तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा भारत की सराहना और दूसरी भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हुई बातचीत। इन मुद्दों पर यह शक बना हुआ था कि भारत की नीति से इन दोनों राष्ट्रों को कुछ न कुछ एतराज जरूर है लेकिन वे संकोचवश खुलकर बोल नहीं रहे थे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि रूस और ब्रिटेन, दोनों ही भारत की नीति से संतुष्ट हैं और उनके संबंध भारत से दिनोदिन घनिष्ट होते चले जाएंगे। पहले हम रूस को लें। भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले का कभी दबी जुबान से समर्थन नहीं किया लेकिन उसे अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों की तरह रूस के विरुद्ध आग भी नहीं बरसाई। उसने यूक्रेन से अपने हजारां नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला, उसे टनों अनाज भेंट किया और कुछ प्रस्तावों पर संयुक्तराष्ट्र संघ में उसका साथ भी दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में साफ-साफ कह दिया कि यह वक्ता युद्ध का नहीं है। रूस-यूक्रेन युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए। शायद इसी का असर था कि पुतिन ने परमाणु-युद्ध की आशंका से त्रस्त सारे विश्व को आश्वस्त किया कि उनका इरादा परमाणु बम चलाने का बिल्कुल नहीं है। अब उन्होंने मास्को के एक शक्ति टैक्य में भाषण देते हुए न केवल मोदी की भूरि-भूरि प्रशंसा की बल्कि कहा कि इस संकट के दौरान भारत के साथ रूस का कृषि व्यापार दुगुना हो गया, उर्वरक निर्यात 7-8 गुना बढ़ गया और आपसी व्यापार 13 अरब से कूदकर 18 अरब डॉलर का हो गया। रूसी तैल ने भारत की जरूरत पूरी कर दी। पुतिन ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। यह तब है जबकि भारत अमेरिका के साथ कई मोर्चों पर पूरी तरह सहयोग कर रहा है। चीन को इससे काफी जलन हो रही है लेकिन भारत के बारे में रूस का मूल्यांकन सही है। इसी तरह ब्रिटेन-भारत मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने के पूरे आसार दिखाई पड़ने लगे हैं। ऋषि सुनाक ने प्रधानमंत्री बनते ही अपने विदेश मंत्री को सबसे पहले भारत भेजा है। मोदी और सुनाक की बातचीत से मुक्त व्यापार का रास्ता काफी साफ हुआ है। लंदन में यह डर बताया जा रहा था कि उक्त समझौता यदि हो गया तो ब्रिटेन में भारतीयों की भरमार हो जाएगी और वे ब्रिटिश बाजारों पर कब्जा कर लेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन चाहता है कि उसकी मोटर साइकिलों, शराब, केमिकल्स और अन्य कई चीजों पर भारत ज्यादा टैक्स-ड्यूटी न लगाए। ऐसे ही भारत भी अपने कृषि-पदार्थों, कपड़ों और चमड़े आदि के समान पर ड्यूटी घटवाना चाहता है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में यदि उक्त समझौता हो गया तो अन्य कई यूरोपीय देशों के दरवाजे भी भारतीय माल के लिए खुल जाएंगे।

प्रदेश में किसानों के हित में निर्णय लिया जाकर अब गेहूँ के साथ ही मूंग, चना, उड़द और मसूर जैसी दलहन और सोया, सरसों जैसी तिलहन का भी उपार्जन किया जा रहा है। सरकार किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन भी कर रही है। इन सबसे किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग खुला है। सरकार ने फसलों के आने के साथ ही उपार्जन से किसानों को उपज का...

कमल पटेल
धरती पुत्र शिवराज सिंह चौहान ने जबसे प्रदेश की कमान सम्हाली है, तभी से स्वर्णिम मध्यप्रदेश के सपने को साकार करने में हर पल गुजरा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कहते हैं कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में किसान की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसी सोच के मद्देनजर किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये निरंतर कार्य किये हैं, जो आज भी बदस्तूर जारी हैं। अपनी स्थापना के 67वें वर्ष में मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश है, जिसने कई कीर्तिमान रचते हुए लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त किया है। प्रदेश आज विकसित राज्यों की दौड़ में शामिल है। गेहूँ उत्पादन के साथ ही उपार्जन में भी हम अबल हैं। हमने पंजाब जैसे राज्यों को पीछे कर बता भी दिया है और जता भी दिया है कि प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करने को दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। गुणवत्ता में भी हम सबसे मुकाबला करने को तत्पर हैं। राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाएँ, कुशल और सक्षम नेतृत्व, वैज्ञानिकों के साथ ही किसानों

की मेहनत का सुफल है कि प्रदेश की रायसेन मण्डी में धान समर्थन मूल्य से 1200 रुपये अधिक तक बिक रहा है। सरकार सतत प्रयास कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का दोगुना से ज्यादा लाभ मिले। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से जनता को लाभान्वित करने में मध्यप्रदेश प्रथम पयदान पर है। उक्त योजना का लाभ देश में सबसे पहले हरदा जिले के किसान रामभरोस विश्वकर्मा को मिला। प्रदेश कृषि अधो-संरचना निधि के उपयोग में भी देश में अबल है। प्रदेश में इस निधि से 1508 प्रकरण में 852 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है, जो देश में अब तक किये गये व्यय की कुल 45 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपये की दो किश्तें प्रदान की जा रही हैं। अब तक प्रदेश के 80 लाख किसानों को 4751 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सबसे अधिक किसानों को लाभान्वित करने वाला



राज्य है। योजना में रबी 2020-21 में ही 49 लाख किसानों को 7618 करोड़ रुपये की दावा राशि का भुगतान किया गया। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभान्वित करने के लिये वन ग्रामों को भी योजना में शामिल करना, फसल अधिसूचित करने के लिये न्यूनतम सीमा 100 के स्थान पर 50 हेक्टेयर करना, क्षति आकलन के लिये बीमा पोर्टल को लेण्ड रिकॉर्ड के एनआईसी पोर्टल से लिंक

गुजरात चुनाव रु चंद बाते

वे फाइलों पर दस्तखत नहीं करते हैं लेकिन हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं। यमुना का पानी साफ नहीं है तो उसका मुआयना केजरीवाल करते हैं तो कड़ू के पहाड़ को देखने भी वे ही जाते हैं। स्कूल-अस्पताल का शिलान्यास हो या उद्घाटन सब केजरीवाल करते हैं। पूजा-पाठ, आरती और हनुमान चालीसा का पाठ भी केजरीवाल ही करते हैं। रानी सब कुठ केजरीवाल के ईर्द-गिर्द होता है। तभी नरेंद्र मोदी और ...

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी आयोग ने गुजरात चुनाव को दो चरणों में करवाने का फैसला लिया है। जिसमें पहले चरण के लिए एक दिसंबर और दूसरे चरण के लिए पांच दिसंबर को मतदान होंगे और चुनावों का नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के चुनाव 12 नवंबर को हैं और इसके नतीजे भी 8 तारीख को ही आएंगे। जब 15 अक्टूबर को आयोग ने हिमाचल प्रदेश चुनावों की घोषणा की थी, तब भी यह सवाल उठा था कि इसके साथ ही गुजरात चुनाव का ऐलान क्यों नहीं हुआ। जब एक देश एक चुनाव के मंसूबे बांधे जाते हैं, तो दो राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में क्या अड़चन है, यह विचारणीय है। यह ध्यान देने वाली बात है कि इस बार दोनों राज्यों के चुनावों में मुद्दों और परिस्थितियों में कई समानताएँ हैं। दोनों राज्यों में भाजपा की सत्ता है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, जो इस बार भाजपा को कड़ी चुनौती दे रही है, जबकि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आप को भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है। यानी उसे चुनाव में इतना बढ़ावा इसलिए

मिल रहा है ताकि वह कांग्रेस के वोट काट सके और इससे भाजपा की जीत का रास्ता तैयार हो जाए। लेकिन इस बार एंटी इन्कम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर दोनों राज्यों में महसूस की जा सकती है। तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि आप और भाजपा दोनों की उम्मीदों के विरुद्ध कांग्रेस को ही जीत मिल जाए। हिमाचल प्रदेश में तो वैसे भी हर पांच साल में सत्ता बदलने का रिवाज है और भाजपा इस बार रिवाज बदलने का आग्रह लोगों से कर रही है। लेकिन जनता महंगाई और बेरोजगारी की समस्याओं से इतनी तंग हो चुकी है कि शायद वह भाजपा के आग्रह को ठुकरा दे और कांग्रेस को सत्ता सौंप दे। कहने का आशय यह कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत की संभावनाएँ अधिक हैं और यहां के नतीजे गुजरात चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। मगर अब दोनों नतीजे एक साथ आएंगे तो भाजपा की यह बाधा दूर हो जाएगी। वैसे गुजरात भाजपा का गढ़ है। पिछले 27 सालों से यहां भाजपा की सरकार है, जिसमें से 12 साल मुख्यमंत्री रहने का रिकार्ड नरेन्द्र मोदी के नाम है। एक तरह से गुजरात और मोदी एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। ऐसे में मोदीजी यह कतई नहीं चाहेंगे कि गुजरात में उनकी हार की जरा सी भी आशंका हो। चुनावों की

घोषणा के एक दिन पहले तक वे गुजरात में ही थे। और इस दौरान ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से लेकर सरदार पटेल की जयंती मनाने और आदिवासियों को संबोधित करने जैसे सारे काम उन्होंने किए। लेकिन इस बीच ही मोरबी में झूलते पुल के गिरने का हादसा भी हो गया। जिसमें तीन दिन बाद गुजरात सरकार ने राज्यव्यापी शोक रखा था। निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा में देरी के पीछे यह तर्क दे रहा है कि मोरबी हादसे की वजह से ऐसा हुआ। मगर मोरबी कांड तो 30 अक्टूबर को हुआ था, और आयोग से 15 अक्टूबर से सवाल हो रहे थे कि गुजरात चुनाव के ऐलान में देर क्यों हो रही है। आयोग अपनी सौ प्रतिशत निष्पक्षता और ईमानदारी का दावा कर रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आयोग के सामने ऐसे दावे करने की नौबत ही क्यों आई। बहरहाल, अब चुनाव का ऐलान हो गया है और उन मुद्दों की चर्चा शुरू हो गई है, जिनके ईर्द-गिर्द चुनाव होंगे। मोरबी कांड के बाद भाजपा के प्रशासन और उसके नेताओं के रवैये पर कई सवाल उठें। जनता इस हादसे पर नाराजगी दिखा रही है, मगर क्या यह नाराजगी भाजपा के वोट कम करेगी, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तरप्रदेश में भी लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की दर्दनाक

घटना हुई थी, जिसमें आरोप केन्द्रीय मंत्री के बेटे पर ही लगे हैं, लेकिन फिर भी लखीमपुर खीरी में विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत ही मिली। अब ये देखना होगा कि गुजरात और उत्तरप्रदेश के मतदाताओं के मिजाज में कितना फर्क है। गुजरात में इस ताजातरीन हादसे के अलावा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हैं और इनके साथ बंदरगाहों पर भारी संख्या में मादक द्रव्यों का पकड़ाना भी सरकार के खिलाफ असर दिखा सकता है। इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भाजपा की ओर से नरेन्द्र मोदी ही मुख्य चेहरा हैं और भाजपा की कोशिश यही थी कि इस बार भी चुनाव नरेन्द्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो। लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं और गुजरात प्रचार के लिए संभवतः नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में जुटी हैं और वे गुजरात आ सकती हैं। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे के लिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अग्रिमपरीक्षा की तरह होंगे, क्योंकि इनके परिणाम उनके नेतृत्व को मजबूत या कमजोर साबित कर सकते हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस के लिए राजनैतिक उपयोगिता भी चुनाव से सिद्ध हो सकती है।

किसानों के सशक्तिकरण के लिये संकल्पित शिव-राज

करना, अवकाश के दिनों में भी बैंक खुलवा कर किसानों का बीमा कराना और बीमा कवरेज के स्केल ऑफ फायनेंस को 100 प्रतिशत तक करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सिंचाई सुविधाओं में अकल्पनीय विस्तार हुआ है। आज प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का रकबा लगभग 45 लाख हेक्टेयर तक पहुँच चुका है। वर्ष 2025 तक इसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। प्रदेश जैविक खेती में पहले स्थान पर है। गुड गवर्नंस इण्डेक्स 2021 में कृषि संबद्ध क्षेत्र में मध्यप्रदेश नम्बर वन है। कृषि विकास के लिये प्रदेश में ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक पर काम हो रहा है। इसके लिये कृषि क्षेत्र में आधुनिक एवं उन्नत तकनीकों के प्रयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया (एकार्डी) की मदद ली जा रही है। एम-पोर्टल से एसएमएस द्वारा कृषि संबंधी सलाह किसानों को दी जा रही है। प्रदेश में बीज, उर्वरक,

कीटनाशक लायसेंस प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। प्रदेश में किसानों के हित में निर्णय लिया जाकर अब गेहूँ के साथ ही मूंग, चना, उड़द और मसूर जैसी दलहन और सोया, सरसों जैसी तिलहन का भी उपार्जन किया जा रहा है। सरकार किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन भी कर रही है। इन सबसे किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग खुला है। सरकार ने फसलों के आने के साथ ही उपार्जन से किसानों को उपज का वाजिब दाम मिलना सुनिश्चित किया है। किसान आधुनिक तकनीक से लैस हो रहे हैं। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन फसलों के लिये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त प्रयास किये जा रहे हैं। इसकी बढौलत ग्रीष्मकालीन फसलों के रकबे में 3 गुना तक की वृद्धि हुई है। आज ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल का रकबा बढ़ कर 7 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये प्राकृतिक कृषि बोर्ड गठित किया गया

है। प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों में जैविकआकृतिक कृषि शाखाएँ प्रारंभ की गई हैं। किसानों को फसल तकनीकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिये कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषि ओपीडी की स्थापना की गई है, जहाँ से कृषक व्हाट्सअप और आईटी से कृषि वैज्ञानिकों से सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। सरकार ने किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिये किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केन्द्र (दूरभाष क्रमांक 0755-2558823) की स्थापना भी की है। 0-लेखक कृषि मंत्री मध्यप्रदेश शासन है।



सीएचओ को एएमएस के माध्यम से दर्ज करानी होगी अपनी उपस्थिति

मिशन निदेशक के पत्र के बाद सीएमओ ने भी जारी किए निर्देश

सीतापुर। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) को अब अटेंडेन्स मैनेजमेंट सिस्टम (एएमएस) एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक अर्णा उपाध्याय ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिख इस नवीन व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा

अधिकारी डॉ. मधु गैरोला ने बताया कि इस संबंध में सभी सीएचसी अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में कार्यरत सभी सभी सीएचओ को एएमएस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि सीएचओ की ड्यूटी सुबह 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक की है। साथ ही उन्हें उपकेंद्र स्तर पर ही रात्रि विश्राम भी करना है। उन्होंने बताया कि पूर्व से मौजूद इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत

है। सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल हैं। लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बाशिनदों को उनके घर के समीप गुणवत्तापरक प्रत्येक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सीएचओ की तैनाती की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के 338 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में से 242 सेंटर पर सीएचओ तैनात हैं। सीएमओ ने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति को डिजिटलाइज किये जाने के लिए

एएमएस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है जिसके क्रम में सीएचओ की उपस्थिति डिजिटलाइज की गई है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (डीसीपीएम) द्वारा इस एप पर सभी सीएचओ के मोबाइल नम्बर को रजिस्टर्ड किया गया है।

यह होगी पूरी प्रक्रिया: डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (डीसीपीएम) रिजवानुल हक ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लागू-इन करते हुए एप्लीकेशन के जरिये

उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर से सभी को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। जिले के सभी केंद्रों के अक्षांश और देशांतर इस एप पर पंजीकृत हैं। ऐसे में संबंधित सीएचओ द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पहुंच कर ही दर्ज की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी अन्य जगह से उपस्थिति दर्ज की गई तो संबंधित सीएचओ के खिलाफ सविदा कर्मी नियमावली के तहत कार्यवाई भी की जाएगी। इस एप पर दर्ज की गई उपस्थिति की मॉनिटरिंग समय-समय पर राज्य और जनपद स्तर पर की जाएगी।

अभाकिम ने धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा

बिसवां नगर सीतापुर। विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा व अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने बिसवां तहसील परिसर में धरना देकर राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह को सौंपा ज्ञापन में कहा गया है। कि प्रदेश में ग्रामीण गरीबों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कहीं कहीं पूरी बस्ती की बिजली सप्लाई काट दी गयी है। नियमित रूप से बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा है। एवं अचानक 40-50 हजार रूपये का बिल भेजकर सदमा पहुँचाया जा रहा है। विद्युत केंद्रों पर कोई भी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। ज्ञापन में मांग की गयी है कि बिजली बिल 2022 वापस लिया जाए एवं बिजली

का निजीकरण बंद किया जाए व दिल्ली पंजाब की तरह कृषि कार्य के लिए मुफ्त व सभी के लिए 300 यूनिट बिजली दी जाए बकाया वसूलने में प्रताड़ना बंद कर कनेक्शन कट करना रोका जाए इसके अतिरिक्त रसूखदारों व सरकारी संस्थाओं के बकाया बिल की वसूली व कनेक्शन एवं मीटर

जोड़ने में भ्रष्टाचार बंद करने एवं जमानिया तहसील क्षेत्र में जर्जर तारों को दुरुस्त करये जाने व गरीबों का बिजली बिल माफ करने व सविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की गयी है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से संतराम व उनके साथी मौजूद रहे।

बेसिक बाल क्रीड़ा:सावित्री एवं प्रीतम बने ब्लॉक चैंपियन

दैनिक बुद्ध का संदेश सिद्धार्थनगर। जिला स्टेडियम में संपन्न दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में सर्वाधिक



अंक पाकर कंपोजिट विद्यालय बसौनी की छात्रा सावित्री एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरगदवा के छात्र प्रीतम ने बालक एवं बालिका वर्ग में चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। प्राथमिक वर्ग में खलीलपुर की ज्योति तथा सेमरियांव के अरशद अली चैंपियन बनने में कामयाब रहे। पुरस्कार वितरण समारोह को बतौर मुख्यातिथि संबधित करते हुए ओलंपिक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने बच्चों के खेल प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सभी चैंपियन्स को ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से स्पोर्ट्स किट प्रदान करने की घोषणा की। बीईओ नौगढ़ धर्मेन्द्र पाल ने सभी विजेता बच्चों एवं टीमों को जीत की बधाई देते हुए तहसील एवं जनपदीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर ब्लॉक का परचम बुलंद करने हेतु अभिप्रेरित किया। नियाज कपिलवस्तुवी के संचालन में संपन्न दो दिवसीय कार्यक्रम में अरुण सिंह, सत्येंद्र गुप्ता, अरुण त्रिपाठी, रजनी जैसवाल, आरती चौधरी, कैलाश मणि त्रिपाठी, विजयेंद्र मिश्रा, राकेश पांडेय, सईद आब्दी, सुभाष वरुण, किरन उपाध्याय, माहेश्वरी पाठक, चंद्रभान यादव, सुनील कुमार आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

पत्रकार के निधन से शोक की लहर

सीतापुर। विकासखंड पिसावां के बरगावां निवासी वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा का निधन हो गया। वह कई वर्षों से कई दैनिक अखबार में काम करते चले आ रहे थे। वर्तमान में पूरुब पर निजी न्यूज चैनल चला रहे थे। शाम मठ बजे कमरे में पंखे से शव लटकता पाया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिये भेज दिया। उनके असायिक निधन से मीडिया जगत में और उन्हें जानने वालों में शोक की लहर दौड़ गयी है। तमाम लोगों ने उनके मृतु स्वभाव, हंसमुख अंदाज, सक्षम पत्रकार के तौर पर उन्हें याद किया। उनके निधन की खबर को वज्रपात के समान बताया है। उनके घर में पत्नी के अलावा दो बेटा दो भाई हैं उनके माता पिता का पहले ही स्वर्गवास हो गया था। इस मौके पर सैड़कों पत्रकारों व गणमान्य लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की।

नवां श्री श्याम वार्षिकोत्सव एवं निशान यात्रा के निमंत्रण पत्रिका का हुआ विमोचन

अध्यात्म अभिनय का विषय नहीं,अध्यात्म का लक्ष्य,प्रीति और विश्वास हो-कृपालु साधक डॉ राजेंद्र दत्त

हरदोई। अध्यात्म अभिनय का विषय नहीं, इसका लक्ष्य, प्रीति और विश्वास का समागम हो, श्री श्याम बाबा भगवान श्रीकृष्ण के ही भक्त हैं, समाज में जो व्यक्ति तन, मन, धन से कमजोर हों, हम उसी की सहायता करें, यह श्याम बाबा का संदेश है, प्रमु के सच्चे स्वरूप को देखने के लिए उन्होंने अपना सिर कटवा दिया। पृष्ठक वक्तव्य श्री श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित आगामी जनवरी 2023 के भव्य निशान यात्रा एवं श्री श्याम भजन गायक कन्हैया मित्तल के कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिका

के विमोचन अवसर पर कृपालु साधक डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्रा ने दिया। श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वावधान में संस्थापक सोमेंद्र अग्रवाल के दिशा निर्देशन में नवम भव्य श्री श्याम वार्षिकोत्सव एवं निशान यात्रा के निमंत्रण पत्रिका का विमोचन हुआ। 2023 के होने वाले भव्य आयोजन की ऐतिहासिक रूपरेखा बनाई गई है। इस विमोचन में मुख्य अतिथि के रूप में कृपालु साधक राजेंद्र दत्त मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, डॉ जे के वर्मा, अशोक अग्रवाल एमएलसी, नया अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा मधुर, पी के वर्मा,

श्री श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम आयोजन की शुरुआत में खाटू श्याम बाबा का दीप जलाकर माल्यार्पण किया उसके पश्चात निमंत्रण पत्र के कवर पेज का अनावरण हुआ। 123 जनवरी को होने वाले आयोजन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का पहला कदम आज रखा गया। भव्य और खूबसूरत निमंत्रण पत्र का विमोचन कर नगर के तमाम संभ्रांत नागरिक, संरक्षक मंडल इस आयोजन में उपस्थित रहे। सभी ने इस होने वाले आयोजन की भूरि भूरि प्रशंसा

की और हर प्रकार से सहयोग करने का आश्वासन दिया। जिला भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने भी शासन और प्रशासन स्तर की किसी भी प्रकार की मदद के लिए अपने आपको तत्पर बताया। व्यवसायी राकेश अग्रवाल ने भी मार्गदर्शन दिया। इसी आयोजन के तहत 22 जनवरी 2023 को एक भव्य निशान यात्रा का आयोजन भी रखा गया है। इस भव्य निशान यात्रा में तकरीबन 1100 निशान का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। जिन्हें नगर के सभी श्याम प्रेमी मंडल की व्यवस्था के तहत अपने-अपने निशान लेकर निशान यात्रा में

शामिल होंगे। यह निशान यात्रा 22 जनवरी को वेणी माधव बाल विहार स्कूल हरदोई से निकाली जाएगी और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री राम जानकी मंदिर में समापन होगी। निशान यात्रा की बहुत भव्य तैयारियां की जा रही हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में 23 जनवरी को सुप्रसिद्ध भजन सम्राट कन्हैया मित्तल एवं अन्य भजन गायक का आगमन सीएसएन डिग्री कॉलेज हरदोई में किया गया है। श्री श्याम मित्र मंडल ने इस आयोजन में 23 जनवरी को रक्तदान शिविर जिला अस्पताल के माध्यम से किया

जाएगा ताकि समाज को रक्तदान करा जा सके। विमोचन के बाद सायं की बेला में अनुपम अग्रवाल नघेटा रोड के निवास पर बाबा के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री खाटू श्याम जी का कीर्तन किया गया एवं द्वादशी को भंडारे की व्यवस्था भी की गई। इस सम्पूर्ण आयोजन की व्यवस्था को निभाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका में अनुपम अग्रवाल, अनुराग कुमार वैश्य, अमित अग्रवाल, आकाश अग्रवाल सी ए, अंकुर मित्तल, ऋषभ अग्रवाल, संचित अग्रवाल, सुधांशु अग्रवाल, विवेक बंसल, अपूर्व माहेश्वरी आदि उपस्थित रहे।

लड़कियों को साइबर क्राइम में से बचने के लिए किया जागरूक

दैनिक बुद्ध का संदेश सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के बाल



तस्करी से आजादी कार्यक्रम के तहत बाल कल्याण समिति सिद्धार्थनगर के द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन प्लान इंडिया और प्रकाशनी ग्राम एवं नगर विकास संस्थान के सहयोग से बाल शिक्षा सदन कन्या इन्टर कालेज में बच्चों को बालश्रम, यौन शोषण, लिंग भेद आदि मुद्दों पर जागरूक करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक श्रमायुक्त सिद्धार्थनगर, महिला थाना प्रभारी, बाल कल्याण समिति, प्लान इंडिया, प्रकाशनी ग्राम एवं नगर विकास संस्थान के द्वारा बालश्रम की योजनाओं, महिला सुरक्षा, लिंग भेद व साइबर क्राइम पर बच्चों को जागरूक किया गया। सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई बाल कल्याण समिति के तरफ से बच्चों को समिति के कर्तव्यों के बारे में बताया गया महिला थाना प्रभारी के द्वारा बच्चियों को 1090 व मिशन शक्ति के बारे में बताया गया। सहायक श्रमायुक्त द्वारा श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं व बाल श्रम कानून पर चर्चा किया गया। प्लान इंडिया के समन्वयक द्वारा बच्चियों लिंग आधारित शोषण पर चर्चा किया गया तथा इसके साथ आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया। प्रकाशनी ग्राम एवं नगर विकास संस्थान के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। बच्चियों ने बहुत से सुझाव भी दिए कि लिंग भेद हमें अपने घर से खच्चम करना होगा। इस कार्यक्रम में सहायक श्रमायुक्त सिद्धार्थनगर श्रीमती सुमन जी, महिला थाना प्रभारी श्रीमती मीरा चौहान, बाल कल्याण समिति सदस्य, प्लान इंडिया से प्रसून शुक्ल, प्रधानाचार्य रेखा गुप्ता, प्रकाशनी ग्राम एवं नगर विकास संस्थान से अश्वनी श्रीवास्तव, मुस्कान, प्रांजुल आदि शामिल थे।

किसान भाई धान खरीद केन्द्रों पर ही अपने धान की बिक्री करें और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य प्राप्त करें

हरदोई। कृषि सूचनातंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रसार युधार (आत्म) योजना के संयुक्त तत्वाधान में किसान मेला कृषि प्रदर्शनी एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन विकास खण्ड सभागार बिलग्राम के परिसर में किया गया। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि(मैं) श्रीमती विमला देवी जी द्वारा फीता काटकर किसान मेला व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। उनके द्वारा कृषि प्रदर्शनी में लगाई गई विभिन्न विभागों संस्थाओं तथा प्रतिष्ठानों की स्टॉलों का अवलोकन किया गया व प्रदर्शित यंत्रों, उपकरणों तथा उत्पादों की जानकारी प्राप्त की गई। मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत राई सरसों तथा मसूर के निःशुल्क बीज मिनीकिटों का वितरण क्षेत्रीय कृषकों को व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा पी.एम. कुसुम योजना के अन्तर्गत सोलर पम्प स्थापना के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र वितरण किया गया। इसके साथ ही कृषि विभाग द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी कृषकों को पराली खेत में ही सड़ाकर खाद तैयार करने हेतु वेस्टडिकमोजन का वितरण मुख्य अतिथि के द्वारा कराया गया।

मुख्य अतिथि द्वारा गोष्ठी में किसान भाईयों को बतलाया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कृत संकल्प है। इसी के तहत खरीफ एवं रबी फसलों के समर्थन मूल्यों में भारी वृद्धि की गई है। किसान भाई धान खरीद केन्द्रों पर ही अपने धान की बिक्री करें और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य प्राप्त करें। प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति

को दृष्टिगत रखते हुये द्व राहत कार्य चलाये जा रहे हैं तथा फसलों की क्षति के लिये क्षतिपूर्ति की व्यवस्था बीमा कम्पनियों से कराई जा रही है। किसान भाई अपनी परम्परागत गेहूँ धान की खेती से अलग हटकर कृषि विविीकरण को अपनायें तथा अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत बनायें। किसान भाई इस प्रकार के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भागीदारी करते हुये विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी को अमल में लायें सरकार द्वारा किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिनका लाभ उठाकर किसान भाई अपनी खेती में लागत को कम और कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। मा० प्रधानमंत्री ने सभी किसान भाईयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत रू० 6000 की सालाना राशि देकर सम्मानित करने का कार्य किया है। किसान भाईयों को किसान क्रेडिट कार्ड पर अपनी खेती किसानी के लिये 4 प्रतिशत न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति कराई जाती है। पी०एम०कुसुम योजना अन्तर्गत 60 प्रतिशत अनुदान पर विभिन्न धमताओं के सोलर पम्प की स्थापना कराई जा रही है। सोलर पम्प स्थापना से सिंचाई पर होने वाले व्यय को कम करते हुये उत्पादन लागत को न्यून किया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी किसानों और आम जनमानस की सतत् भलाई एवं कल्याण के लिये अहर्निश प्रयत्नशील एवं संकल्पबद्ध हैं। किसान भाई कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बतलाई गई विधियों से खेती करें नवीनतम

तकनीकी अपनायें पराली को खेतों में ही सड़ाकर उसका उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हुये खेतों की मृदा का स्वास्थ्य तथा पर्यावरण व जनमानस के स्वास्थ्य संवर्धन में अपना बहुमूल्य योगदान दें। जो किसान भाई अवर्षण अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण समय से बुवाई नहीं कर सके हैं और तिलहननी व दलहननी फसलों की खेती के इच्छुक है, उनको कृषि विभाग द्वारा निःशुल्क राई सरसों का 2 कियाम तथा मसूर का 8 कियाम बीज एक एकड़ क्षेत्रफल की बुवाई हेतु दिया जा रहा है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सुरेश सिंह, प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार के साथ-साथ कृषि विभाग तथा अन्य सम्बद्ध विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान भाई उपस्थित थे।

इसी प्रकार का किसान मेला कृषि प्रदर्शनी एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन विकास खण्ड सुरसा के ब्लाक परिसर में भी ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि धनन्जय मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में किया गया जिसमें कृषकों को निःशुल्क राई सरसों एवं मसूर के बीज मिनीकिटों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा पी०एम० कुसुम योजना के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र का वितरण भी मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी श्री विनीत कुमार खण्ड विकास अधिकारी डा० राम प्रकाश तथा कृषि विभाग व अन्य सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कृषकों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।

फसल अवशेष प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत विषय मोबिलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया

हरदोई। कृषि विज्ञान केन्द्र, हरदोई द्वारा आज महाराणा प्रताप राजकीय पी०जी०कालेज, हरदोई में फसल अवशेष प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत विषय मोबिलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारीध्वैज्ञानिक डा० प्रिया विशिष्ट ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे प्रश्नोत्तरी, पोस्टर तथा निबन्ध प्रतियोगिता कराई गई। जिसके अन्तर्गत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में ऋतु शुक्ला, शिवेश सिंह एवं विकास कुमार ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। निबन्ध प्रतियोगिता में आर्दश सेन,

तबस्सुम एवं विनायक गुप्ता को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। इसी प्रकार पोस्टर प्रतियोगिता में विनीत अवस्थी, मुदीका वर्मा एवं वैष्णवी गुप्ता को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार मिला। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डा प्रिया विशिष्ट ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे प्रश्नोत्तरी, पोस्टर तथा निबन्ध प्रतियोगिता कराई गई। जिसके अन्तर्गत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में ऋतु शुक्ला, शिवेश सिंह एवं विकास कुमार ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। निबन्ध प्रतियोगिता में आर्दश सेन,

फसलों का अवशेष प्रबन्धन एक अहम मुद्दा है और हमें जागरूक होकर पराली को नही जलाना चाहिए।

इस अवसर पर केन्द्र के फसल सुरक्षा, वैज्ञानिक डा० सी०पी०एन० गौतम ने कहा कि देश में 630-635 मिलियन टन फसल अवशेष सालाना पैदा होता है। फसल अवशेष जलाने से भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी होती है। केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मुकेश सिंह ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से भूमि के मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं एवं कार्बनिक पदार्थों का भी नुकसान होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केन्द्र के प्रभारी डा० अबधेश कुमार तिवारी जी ने कहा कि

फसल अवशेष कम्पोस्ट खाद बनाने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों को पशुचारा अथवा औद्योगिक उपयोग के लिये इकठ्ठा करना चाहिए साथ ही अवशेषों को मिट्टी में मिला देना चाहिए। कार्यक्रम में 100 छात्र छात्राओं ने प्रश्नोत्तरी एवं 75 छात्र एवं छात्राओं ने निबन्ध प्रतियोगिता में एवं 75 छात्रछात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता में भागीदारी की इस कार्यक्रम में 250 छात्रछात्राओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम में 100 छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्रधानाचार्य डा० जय जाते हैं एवं कार्बनिक पदार्थों का भी नुकसान होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केन्द्र के प्रभारी डा० अबधेश कुमार तिवारी जी ने कहा कि

अटल के रास्ते पर चल रहे हैं मोदी

चनुकी/मेहरौना/लार(देवरिया)। नगर पंचायत लार परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाईपास तिराहा पर पूर्व सांसद हरिकेवल प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने किया। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि नगर अध्यक्ष सरोज देवी की पहल पर महान व्यक्तियों की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। अटल के रास्ते पर चल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अंदर कोरोना संक्रमण काल से लेकर अब तक करोड़ों जनता को निशुल्क भोजन देने का काम किया। भाजपा सरकार ने करोड़ों लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवा कर दवा कराने की व्यवस्था की है। राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जितना कहा जाय उतना कम है। सांसद सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि लार में नगर पंचायत ने अटल और पूर्व सांसद हरिकेवल प्रसाद की प्रतिमा की स्थापना कराकर बेहतरीन कार्य किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष सरोज यादव ने कहा कि भाजपा सरकार विकास को नया आयाम दे रही है। बरहज विधायक दीपक कुमार मिश्र उर्फ शाका मिश्र ने कहा कि भारत को नई दिशा देने वाले भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कराकर बेहतर काम किया है। कार्यक्रम में भाजपा नेता गुड्डन कुशवाहा, जगदीश यादव, करन यादव, बिंदा कुशवाहा, हाकिम सिंह, कमलेश तिवारी, रामेश्वर सिंह, देवेन्द्र सिंह राजू आदि मौजूद रहे।

फरेंदा कस्बे मे पेंट व हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग

फरेंदा। कस्बे के मिलगेट के समीप पेंट व हार्डवेयर की दुकान मे भीषण आग लग गई । जिसमे गोदाम मे रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। धू धू कर जल रहे गोदाम से निकल रहे काले धुएं के गुबार से लोगों में दहशत हो गई। सूचना के एक घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से लोगों में काफी नाराजगी रही। गोरखपुर सोनौली राजमार्ग पर फरेंदा कस्बे के वार्ड नंबर सात लोहिया मार्केट में कृष्णा लोहिया का पेंट व हार्डवेयर के गोदाम में एकादशी होने के कारण सायं गोदाम में दीप रखकर पूजन के बाद गोदाम बंद कर दिया। दीये से किसी तरह आग लग गई, जो धीरे धीरे फैलने लगी। गोदाम से लपटें निकलता देख लोग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। बढ़ती आग के कारण राजमार्ग कुछ देर के लिए बंद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को वहां से हटाती रही। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना के करीब एक घंटे बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने मे जुट गई। पुलिस टीम भी आग बुझाने के प्रयास लगी हुई है। देर रात में आग पर काबू पाया जा सका था।

ड्रग्स के साथ एक भारतीय सहित चार गिरफ्तार

महराजगंज। नेपाल के रूपनदेही जिले की पुलिस ने चार लोगों को अवैध ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। एक अभियान के तहत अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार लोगों में एक भारतीय समेत तीन नेपाली नागरिक हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। रूपनदेही पुलिस उपाधीक्षक श्यामू आर्याल ने बताया कि तुलसी लोध, शनिकुमार मिश्र निवासी रूपनदेही सम्मरिमाई सात, मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे। जिन्हें भंसार चौक मायादेवी ग्रामीण नगर पालिका के पास मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी स्थान पर भारत के सिद्धार्थनगर जिला निवासी पवन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से नशे में प्रयोग होने वाली दवा बरामद हुई। इसी तरह कपिलवस्तु के मायादेवी ग्रामीण नगर पालिका निवासी अलताप हुसैन को लुंबिनी सांस्कृतिक नगर पालिका 6 तेनुहवा से मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके पास से 53.25 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

सीमावर्ती क्षेत्र से 25 बोरी खाद बरामद, छह गिरफ्तार

महराजगंज। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में तस्करी रोकने के लिए पुलिस एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। चार नंबर को पुलिस ने लावारिस हालत में सीमावर्ती गांव लक्ष्मीपुर खुर्द के करीब नो मंस लैंड से 14 बोरी खाद बरामद की। छापा मारने के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन हुआ है। 25 बोरी खाद नौतनवां एवं बरगदवा थाना क्षेत्र से बरामद हुई। बरगदवा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में मंदिर के पास सुबह जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार व सहायक कृषि विकास अधिकारी सुनील कुमार की टीम ने नौ बोरी डीएपी व सात बोरी यूरिया सहित 11 बंडल कपड़ा बरामद किया। जिला कृषि अधिकारी ने सीमावर्ती गांव में हो रही उर्वरक तस्करी की सूचना पर पांच सदस्यीय टीम लेकर सुबह पिपरा गांव के शिव मंदिर के समीप छापा मारा। नेपाल ले जाने के लिए तस्करी ने लावारिस हालत में 9 बोरी डीएपी खाद व सात बोरी यूरिया खाद बरामद की। थानाध्यक्ष बरगदवा पुरुषोत्तम राव ने बताया कि बरामद डीएपी एवं यूरिया को टूटीबारी कस्टम को सौंप दिया गया। नौतनवां प्रतिनिधि के अनुसार पुलिस गश्त के दौरान डंडा नदी पुल के पास नेपाल ले जा रहे 9 बोरी उर्वरक बरामद कर कार्रवाई के लिए नौतनवां कस्टम को सौंप दिया। थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि 6 बोरी डीएपी तथा 3 बोरी यूरिया और तीन साइकिल बरामद कर छह लोगों को पकड़ा गया। बरामद उर्वरक, साइकिल तथा आरोपियों को नौतनवां कस्टम को सौंप दिया गया।

गोला तहसील सभागार में आयोजित हुआ सम्पूर्ण समाधान दिवस

कुल 117 मामलो में मात्र सात का हुआ निस्तारण



दैनिक बुद्ध का संदेश गोलाबाजार/गोरखपुर। गोला तहसील सभागार में शनिवार को रोस्टर के अनुसार समाधान दिवस का आयोजन सम्पन्न हुआ। जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी गोला रोहित कुमार मौर्य ने किया। समाधान दिवस पर तहसीलदार बृजमोहन शुक्ला नायब तहसीलदार पंकज कुमार गुप्ता बी डी ओ रघुनाथ सिंह सत्यकाम तोमर सुरेश मौर्य उपस्थित होकर पीड़ितों की पीड़ा को सुना। समाधान दिवस पर आए मामलों का निस्तारण करने का भरपूर प्रयास किया। इस समाधान दिवस पर आए कुल 117 मामलों में मात्र सात मामलों का निस्तारण हुआ। शेष मामले निस्तारण के लिए विभागवार सौंप दिए गए। इस समाधान दिवस पर अधिकांश मामले राजस्व खाद्यान विकास व पुलिस से सम्बंधित रहे। किसान सम्मान निधि मिल रहे किसानों को इस बार निधि खाते में न आने से अधिकांश किसानों ने शिकायत दर्ज कराई। किसानों का कहना है कि लेखपाल के कारनामे का भुगत हम किसान कर रहे है। निधि खाते में न आने से हम लोग कृषि कार्यालय के साथ साथ तहसील के चक्कर लगाने को।मजबूर हो गए है। हम लोग पात्र होकर भी इस बार बांछित हो गए।इस अवसर पर रमेश पांडेय टी एन सिंह ओमप्रकाश राजेश कुमार पवन कुमार संजय सिंह अनिल सिंह संजय कुमार वीरेंद्र पांडेय हजरत अंसारी सहित अन्य विभागों से लोग उपस्थित रहे।

मेडिकल कॉलेज में शुरू होंगे दो वार्ड, मरीजों को होगी सहूलियत

वार्डों में बेड लगाने की कवायद शुरू, हर वार्ड में होंगे 40-40 बेड

देवरिया। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सुविधा के लिए दो वार्ड शुरू किए जाएंगे। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इनमें 80 बेड लगाए जाएंगे। इनमें मरीजों के लिए सुविधा होगी। मरीजों को पैरामेडिकल स्टाफ को बुलाने के लिए परेशान नहीं होना होगा। बेड लगाने का कार्य तकरीबन पूरा हो गया है। जिम्मेदारों ने इसका जायजा लिया और निर्देश भी दिए।

महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल के दो वार्ड को शिफ्ट करने की

तैयारी गई है। अस्पताल में कुल तकरीबन 420 बेड हैं। इसमें जिला पुरुष अस्पताल के 220, महिला अस्पताल व एमसीएच विंग के सौ-सौ बेड शामिल हैं। इसमें कई जगहों पर छत का प्लास्टर गिरता है, जिससे स्वास्थ्य कर्मी व मरीजों में भय बना रहता है। इसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने नए भवन में दो वार्ड शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। यहां प्रथम तल पर चालीस-चालीस बेड के दो वार्ड बनाए जाएंगे। इसमें पुराने भवन के पुरुष व महिला मेडिसिन वार्ड

को शिफ्ट किया जाना है। एक वार्ड में करीब चालीस बेड लगा दिए गए हैं। दूसरे में बेड लगाने का कार्य पूरा हो गया है। इसके बाद अन्य सुविधाओं को सुसज्जित किया जाएगा। यहां सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। वार्ड के समीप पुरुष तथा महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गए हैं। वार्ड में नर्सिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां मरीजों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। भर्ती मरीजों को जरूरत पड़ने पर पैरामेडिकल स्टाफ को बुलाने के लिए परेशान नहीं होना होगा।

मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. आरके श्रीवास्तव, अजीत पाल, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एचके मिश्रा नए भवन में पहुंचे। उन्होंने प्रथम तल पर बनाए जा रहे वार्ड का निरीक्षण किया। एक वार्ड में बेड लगा दिए गए थे, जबकि दूसरे में भी अधिकांश बेड लगा दिए गए हैं। उन्होंने वार्डों में सुविधा के बारे में जानकारी की। साथ ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने तेजी से वार्ड को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। हर बेड पर होगी सुविधा

दोनों वार्डों में हर बेड के पास मरीजों की सुविधा के लिए तीन प्वाइंट बनाए गए हैं। इसमें ऑक्सीजन, मेडिकल गैस व नेबुलाइजर के लिए एक-एक प्वाइंट है, ताकि मरीज को जिसकी आवश्यकता हो, उसे उपलब्ध कराया जा सके। पांच मंजिला है नया भवन मेडिकल कॉलेज का नया भवन पांच मंजिला है। भूमि तल पर ओपीडी, पहली, दूसरी व तीसरी मंजिल पर वार्ड, चौथी पर फेकेल्टी व उसके ऊपर लांड्री होगी।

15 नवंबर तक हर हाल में हों सड़कें गड्ढामुक्त

गलत सूचना देने वाले अधिशासी अभियंता की डीएम ने खोली पोल

देवरिया। सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसके लिए 15 नवंबर की डेड लाइन सभी कार्यदायी संस्थाओं के लिए निर्धारित की है है। डीएम ने अभियान की समीक्षा विकास भवन के गांधी सभागार में करते हुए उप निदेशक मंडी और गलत सूचना देने पर अधिशासी अभियंता का वेतन बाधित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं 15 नवंबर तक हर हाल में जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दें। इसमें लापरवाही कर्त्तई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने लोकनिर्माण विभाग, प्रांतीय खंड तथा निर्माण खंड द्वारा किये जा रहे गड्ढा मुक्ति कार्य की धीमी रफ्तार पर

कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्ति अभियान को पूरा नहीं किया गया तो शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही मानी जाएगी। डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता (प्रांतीय खंड) को बैठक में गलत जानकारी देने तथा अधिशासी अभियंता (सीडी) से अभियान में अत्यंत धीमी प्रगति पर स्पष्टीकरण तलब किया। साथ ही बैठक में नहीं आने पर मंडी परिषद के उप निदेशक शिव चरण लाल का वेतन बाधित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 32 सड़कों के नवीनीकरण के लिए टेंडर न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जवाबदेही तय करने के लिए

शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत, नगर पालिका सहित समस्त नगर निकायों द्वारा गड्ढा मुक्ति के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि काम समय से पूरा करें, निर्धारित समय अवधि के बाद वे स्वयं गड्ढा मुक्ति के कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे और कमी मिलने पर कठोर कार्रवाई करेंगे। डी बैठक में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी आरके सिंह, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अबरार अहमद, अधिशासी अभियंता (एनएच) नूर मोहम्मद, अपर मुख्य अधिकारी ज्ञानधन सिंह, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी आदि मौजूद रहे।

स्वाइन फ्लू : जिला अस्पताल में जांच का इंतजाम नदारद

मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं नमूने, डेंगू के मरीज बढ़कर हुए 33, ओपीडी में रोजाना 200 मरीज बुखार व जुकाम के आ रहे

महराजगंज। जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू की जांच की सुविधा नहीं है जिससे सर्दी व खांसी के मरीजों का सामान्य वायरल की तरह से इलाज किया जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों में स्वाइन दस्तक दे चुका है। लेकिन, महराजगंज जिला अस्पताल में जांच की सुविधा नहीं है। जरूरत होने पर नमूने लेकर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। जनवरी से लेकर अब तक जिले में डेंगू के 33 मामले आ चुके हैं। वहीं, बुखार से पीड़ितों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच प्रदेश में स्वाइन फ्लू की दस्तक हो जाने से लोगों की चिंता बढ़ गई है।

मरीजों में यह हो रही समस्या डॉ. एवी त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे मरीज आ रहे हैं, जिनमें भूख न लगना, कफ बनने की समस्या है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार एवं सांस की समस्या देखने को मिल रही है। स्वाइन फ्लू में भी सामान्य सर्दी से जुड़े हुए लक्षण पाए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर नमूना लेकर मेडिकल कॉलेज जांच के लिए भेजा जाता है। हालांकि अभी जिले में स्वाइन फ्लू का प्रभाव नहीं है।

यथा रखें सावधानी: बुखार ठीक होने के 24 घंटे बाद तक घर पर रहें। लगातार पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन न हो। फेसमास्क जरूर पहनें। यह प्रदूषण से बचाव में भी कारगर है।

छींकते समय टिस्सू पेपर से नाक को ढकें और फिर उस पेपर को सावध

ान्नी से नष्ट कर दें। अपने हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें। यदि आपको जुकाम के लक्षण दिखाई दे तो घर से बाहर न जाएं और दूसरों के नजदीक न जाएं। स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी में अंतर—सर्दी लगने पर बुखार अमूमन नहीं आता, परंतु स्वाइन फ्लू होने पर 100-102 डिग्री बुखार आम है।

—सर्दी लगने पर सरदर्द और बदन दर्द कम ही होता है। परंतु स्वाइन फ्लू होने पर काफी सरदर्द होता है और असहनीय बदन दर्द होता है।—सर्दी लगने पर कम कमजोरी आती है परंतु स्वाइन फ्लू से अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है।—सर्दी होने पर नाक जाम हो जाती है परंतु स्वाइन फ्लू होने से नाक अमूमन जाम नहीं होती। स्वाइन फ्लू के लक्षण—खांसी, सर्दी, जुकाम व नाक बहना।—सांस लेने में तकलीफ होना।—कमजोरी, बेवोनी व चिड़चिड़ापन महसूस होना।—आलस आना, बेहोश हो जाना अथवा ठीक से खड़े न हो पाना—लंबे समय तक तेज बुखार—सीने, गले अथवा पेट में दर्द होना।—गले में खराश या उल्टी-दस्त—भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना

साहित्यकार डा.चन्देश्वर हुए सम्मानित



दैनिक बुद्ध का संदेश भनवापुर। दुमरियागंज तहसील के संविलयित उच्च प्राथमिक विद्यालय भनवापुर में कार्यरत डा. चन्देश्वर यादव को स्याही ब्लू बुक्स दिल्ली और हिमालय विरासत ट्रस्ट उत्तराखंड ने सम्मानित किया है। डा. यादव को यह सम्मान भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री व वरिष्ठ साहित्यकार डा. रमेश पोखरियाल निशंक के

रचना संसार पर आधारित बेबीनार में पिछले वर्ष एक अगस्त को रहम देश न जलने देंगे विषयक वार्ता में मुख्य वक्ता की भूमिका के सम्यक् निर्वहन के लिए दिया गया है। वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज इस व्याख्यानमाला में प्रतिभाग किए देश के साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए साहित्य अकादमी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। डा. चन्देश्वर के कार्यक्रम में न पहुंच पाने के कारण उन्हें सम्मान पत्र, मोमेंटो, अंगवस्त्र और डा. निशंक के रचना संसार पर आधारित पुस्तक डाक से भेजा गया था। सम्मान पत्र के साथ प्राप्त पुस्तक का संपादन डा. योगेन्द्रनाथ शर्मा शंकरगुप्त द्वारा किया गया है।दर्जनों पुस्तकों के लेखक डा. यादव को इससे पूर्व दो दर्जन से अधिक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार पा चुके हैं। इनकी पुस्तक पटकथा सौन्दर्य और सृजन केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल है। डा. यादव के सम्मानित होने पर ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष भनवापुर आशीष भारती, अटेवा अध्यक्ष हिमांशु यादव, अखिलेश सिंह, अनिल कुमार गोड़ आदि ने बधाई दी।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन

देश में बच्चों की जागरूकता ही भ्रष्टाचार मुक्तभारत का प्रथम सोपान है-चेयरमैन एम एन त्रिपाठी

दैनिक बुद्ध का संदेश गौरी बाजार,देवरिया। गौरी बाजार क्षेत्र के बिशुनपुरा, बखरा स्थित एस बी टी पब्लिक स्कूल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में



विद्यार्थियों द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर जोर देते हुए पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा तरह-तरह के पोस्टर बनाए गए,जिसमें यह दर्शाया गया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत से ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। इस पोस्टर में बच्चों ने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि हमें हर कदम पर जागरूक रहना होगा जैसे सोशल मीडिया पर आए किसी भी अनजान संदेश को अनदेखा करें साथ ही अपनी किसी भी गोपनीय जानकारी को किसी से साझा न करें। खुद सतर्क रहें और लोगों को भी सतर्कता बरतने का सुझाव दें। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य,उप प्रधानाचार्य,प्रधान समन्वयक, प्रशासक तथा सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं का भरपूर सहयोग रहा।

एकादशी पर परमहंस आश्रम शक्तेशगढ़ में उमड़ा जनसैलाब

स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के दिव्य दर्शन के लिए भक्त हुए निहाल

दैनिक बुद्ध का संदेश सोनभद्र। परमहंस आश्रम शक्तेशगढ़ में पावन पर्व एकादशी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने सदगुरुदेव भगवान योगेश्वर स्वामी अड़गड़ानंद का दिव्य दर्शन, सत्संग किया और जमकर विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। परमहंस आश्रम शक्तेशगढ़ में एकादशी के पावन पर्व पर पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज भक्तों को एकादशी के आध्यात्मिक स्वरूप बताए, तथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने भजन पसुन री में निर्बल के

बलरामधर्मात् प्रत्येक मनुष्य का वास्तविक बल भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है सांसारिक बल एतान पद और शारीरिक बल को लोग मानते हैं, लेकिन सब नश्वर है, व्यर्थ है, जब तक भगवान का बल बरद हस्त न मिले, इसलिए मन सहित इंद्रियों को संयमित करने के लिए एक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, जब मन सहित दसों इंद्रियों मौन हो जाएं और सिर्फ एक परमात्मा रूपी भगवान के चिंतन में निरंतर लगी रहे, तभी कल्याण हो सकता है, और यथार्थ गीता ही हमारा

खाद होने के बावजूद भी दर-दर भटक रहे किसान, किसानों में काफी आक्रोश

दैनिक बुद्ध का संदेश बाराबंकी। तहसील नवाबगंज के ब्लॉक हरख के ग्राम पंचायत



शरीफाबाद में साधन सहकारी समिति शरीफाबाद के गोदाम में कभी भी खाद नहीं रखी जाती है। जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ग्रामीणों का कहना है कि साधन सहकारी समिति के सचिव आसाराम बगल के ही गांव के प्राइवेट दुकानों में खाद रखकर चुनिंदा लोगों एवं अपने ही कुछ खास लोगों को खाद वितरण कर देते हैं और कोई कोई अन्य किसान जाता है तो सीधे मना कर देते हैं बाद में मछोरे रेटों पर खाद बेचने का काम करते हैं जिससे ग्रामीणों को समय से खाद नहीं मिल पाती है। इस वक्त आलू, सरसों एवं गेहूँ की बुवाई में डीएपी की आवश्यकता ज्यादा है जिससे ग्रामीण कहते हैं कि हमारे गांव शरीफाबाद में साधन सहकारी समिति शरीफाबाद के नाम से गोदाम सिर्फ सो पीस के लिए बना रखा है जिसमें ना तो कभी खाद रखी जाती है और वैसे ही खाली पड़ा रहता है। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि हमारे गांव में सीमित होने के बाद भी हम लोगों को अलग-अलग दर-दर भटकना पड़ता है। जब हमारे संवाददाता इसकी जांच पड़ताल करने अख्तियारपुर गए तो वहां बगल के दुकानदारों से पूछे जाने पर पता चला कि यहां जो सीमित के सचिव के द्वारा गोदाम एवं दुकान ले रखी हैं उनमें डीएपी खाद पर्याप्त है कि नहीं तो दुकानदारों ने बताया की डीएपी तो लगी हुई है। तभी हमारे संवाददाता ने खुद फोन करके जानना चाहा तो सचिव आसाराम ने सीधे मना कर दिए की हमारे पास खाद उपलब्ध नहीं है। जोकि किसानों का

कहना है कि इस वक्त आलू, सरसों व गेहूँ की बुवाई खाद की वजह से बाधित हो रही है। और हम लोग दर-दर भटक रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी हमारी कोई भी समस्याएं नहीं चुन रहा है की खाद होने के बावजूद भी हम लोगों को इधर-उधर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद शासन-प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है।

बुद्ध का संदेश
(हिन्दी दैनिक समाचार पत्र)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक
श्रीमती पुष्पा शर्मा द्वारा बुद्धा प्रिन्टर्स, ज्योति नगर मधुकरपुर, निकट-हीरो होण्डा एजेन्सी, जनपद-सिद्धार्थनगर (30500) 272207 से मुद्रित एवं प्रकाशित।
आर.एन.आई. नं.-UPHIN/2012/49458

संस्थापक
स्व. के.सी. शर्मा
सम्पादक
राजेश कुमार शर्मा

9415163471, 9453824459

दैनिक बुद्ध का संदेश
9795951917, 9415163471
@budhakaasandesh
budhakaasandeshnews@gmail.com
www.budhakaasandesh.com

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट. के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद जनपद-सिद्धार्थनगर न्यायालय के अधीन ही मान्य होगा।

किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर की गई वार्ता

दैनिक बुद्ध का संदेश बाराबंकी। भारतीय किसान यूनियन अम्बावाता गुट के राष्ट्रीय



उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव जिला अध्यक्ष राम नारायण यादव जिला महामंत्री अमित सोनी बाराबंकी तहसील समाधान दिवस नवाबगंज बाराबंकी पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वा जिला अध्यक्ष राम नारायण यादव जिला महामंत्री अमित सोनी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम सदर व सीओ सदर समस्त अधिकारियों से वार्ता करते हुए कहा कि किसानों की सभी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो बाराबंकी जनपद में राष्ट्रीय महापंचायत का 10 नवंबर को आवाहन किया गया है जनपद में किसानों की फसल आकस्मिक बरसात होने के कारण बर्बाद हो गई है जिसका मुआवजा जल्द से जल्द सभी किसानों को दिया जाए सभी थानों पर किसानों की समस्या चौपाल लगाकर सभी समस्याओं का निस्तारण थानों से ही कराया जाए जनपद बाराबंकी में गरीब किसान मजदूर परिवार में फैली डेंगू वाह अन्य बीमारियों का इलाज सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर तत्काल कराया जाए सभी जांचों को स्वास्थ्य केंद्रों पर ही प्री में कराया जाए जनपद बाराबंकी में चल रहे प्राइवेट सभी जांच केंद्रों की जांच करा कर सभी जांच केंद्रों पर रेट निर्धारित बोर्ड सामने लगवाया जाए किसानों को रवी फसलों की बुवाई के लिए जैसे आलू व सरसों की बुवाई के लिए तत्काल सभी केंद्रों से खाद उपलब्ध कराई जाए इस मौके पर देवा ब्लॉक प्रभारी रामप्रताप, बंकी ब्लॉक प्रभारी नरेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र, देवा ब्लॉक उपाध्यक्ष राम कैलाश यादव, महिला जिला उपाध्यक्ष पप्पी रावत, युवा ब्लॉक अध्यक्ष देवा अशोक कुमार यादव, बंकी नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील गौतम, आजाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार यादव आदि लोग मौजूद रहे।

जनपद सिद्धार्थनगर के महत्वपूर्ण नम्बर

जिलाधिकारी	मो:-- 9454417530
मुख्य विकास अधिकारी	मो:-- 9454464749
एस डीएम नौगढ़	मो:-- 9454415936
एस डीएम बांसी	मो:-- 9454415937
एस डीएम डुमरियागंज	मो:-- 9454415939
एस डीएम इटवा	मो:-- 9454415939
एस डीएम शोहरतगढ़	मो:-- 9454415940
पुलिस अधीक्षक	मो:-- 9454400305
याना मोहाना	मो:-- 9454404239
याना जोगिया उदयपुर	मो:-- 9454404235
याना गोलौरा	मो:-- 9454404233
याना पथरा बाजार	मो:-- 9454404240
याना त्रिलोकपुर	मो:-- 9454404243
याना उसका बाजार	मो:-- 9454404244

राष्ट्रीय दैनिक बुद्ध का संदेश

याना शोहरतगढ़	मो:-- 9454404241
याना खेसरहा	मो:-- 9454404236
याना इटवा	मो:-- 9454404234
याना चिल्हिया	मो:-- 9454404229
याना डेवरुआ	मो:-- 9454404230
याना भवानीगंज	मो:-- 9454404228
याना मिश्रीलिया	मो:-- 9454404238
याना सि0नगर	मो:-- 9454404242
याना डुमरियागंज	मो:-- 9454404232
याना लोटन	मो:-- 9454404237
महिला याना	मो:-- 9454404891

पूर्व माध्यमिक विद्यालय नैना मऊ में फौली गंदगी, बीमारियों का बना खतरा

दैनिक बुद्ध का संदेश मसौली / बाराबंकी। ब्लॉक मसौली अंतर्गत ग्राम पंचायत नैना मऊ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ग्राम प्रधान नईम कुरेशी व संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से स्वच्छ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त नजर आ रही है व बड़ी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि विद्यालय की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है इस संबंध में हमने संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दी है कि हमारे विद्यालय की बाउंड्री वॉल गिर गई है जिसके कारण विद्यालय में बाहर से लोग आकर विद्यालय में बने शौचालय को सार्वजनिक शौचालय का रूप दे चुके हैं प्रधानाध्यापक का कहना है। कि प्रधान चाहते तो इस टूटी हुई बाउंड्री वॉल को अपने बजट से ही मरम्मत करा सकते हैं। आज हम सबको इस गंदगी का दंश झेलना पड़ रहा है। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान नईम कुरेशी से दूरभाष के माध्यम से बात की गई तो उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी अपनी जिम्मेदारी है की शौचालय के दरवाजे में ताला लगाए यह खुद क्यों नहीं डालते हैं। टूटी हुई बाउंड्री वॉल पर एक सवाल पूछे जाने पर प्रधान ने कहा हमने इसका बजट बना करके भेज दिया है



पैसा आते ही इसकी मरम्मत करा दी जाएगी। डेंगू मलेरिया जैसे भयावह स्थिति बढ़ती वही बाराबंकी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे से भी बात की गई तो

उन्होंने कहा कि जानकारी मिल रही है। और इस कार्य को कायाकल्प के अंतर्गत जल्दी ही कराया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस तरह की अव्यवस्था को नैना मऊ के विद्यालय के अध्यापक और बच्चे कब तक इस दंश को झेलते रहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार जहां साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है। वहीं कुछ जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रहे हैं और एक दूसरे को आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अब एक सवाल यह भी उठता है! कि जब जनपद में

खड़ी ट्रक में पीछे से घुसी मैजिक वाहन एक की मौत, तीन लोग जखमी

दैनिक बुद्ध का संदेश गुरमा, सोनभद्र। चोपन थाना

क्षेत्र के सलखन में शुक्रवार बीती रात में मैजिक वाहन रोड के किनारे खड़ी ट्रक में अनियंत्रित होकर पीछे से घुस गयी इस हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई जबकि चालक सहित तीन लोग गंभीर रूप से जखमी हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों के सहयोग से गंभीर रूप जखमीयों को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया वही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत शव को

कब्जे में आवश्यक कार्रवाई कर ही शुक्रवार रात के तकरीबन 2.



रही है। बताया जाता है की रेणुकूट से मैजिक वाहन सामान लादकर वाराणसी पहुंचा कर वापस रेणुकूट जा रहे थे की जैसे

निवासी शिवा पार्क रेणुकूट, थाना पिपरी। की मौके पर ही मौत हो गई जबकि विनीत कुमार पुत्र अनुरुद्ध राव, रोहित सिंह पुत्र अखिलेश सिंह और आशुतोष सिंह पुत्र मुक्तिनाथ सिंह निवासी रेणुकूट थाना पिपरी गंभीर रूप से जखमी हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों द्वारा जिला चिकित्सालय भेजा गया।

उसका बाजार: ब्लॉक स्तरीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश उसका बाजार। ब्लॉक

स्तरीय वार्षिक बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय उसका के प्रांगण में हुआ। प्रतियोगिता में पूर्व माध्यमिक विद्यालय चुरिहारी और परसा खुर्द के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। बालक कबड्डी में चुरिहारी की टीम ने परसापुर की टीम आठ अंक के अंतर से हराया, इनका स्कोर 14दू 7 का रहा। बालिका में भिटिया की टीम ने 15दू9 के अंतर से चुरिहारी की टीम को हराया। सौ मीटर दौड़ में परसा खुर्द के दीपेंद्र यादव प्रथम, विजय द्वितीय, श्रवण यादव चुरिहारी तृतीय रहे। बालिका वर्ग सौ मीटर दौड़ में चुरिहारी की गायत्री यादव ने सबसे पीछे छोड़ बाजी मारी। भिटिया की नंदिनी द्वितीय, परसा की काजल तृतीय रही। दो सौ मीटर बालक वर्ग दौड़ में परसा खुर्द की मुकेश, द्वितीय

ने कहा कि खेल से शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित



अरुणेंद्र त्रिपाठी ने बच्चों को जीत हार की भावना के बगैर प्रतिभाग करना आवश्यक है। मंच संचालन गुलाम जिलानी ने और व्यवस्थापक रामसेवक गुप्ता रहे। इस दौरान शिवपाल सिंह, अभय श्रीवास्तव, राकेश सिंह, कृ पाशंकर पांडेय, हरिशंकर सिंह, आशुतोष उपाध्याय, जरीना बेगम, शिल्पा त्रिपाठी, संगीता, पूर्णिमा मिश्रा, साधना, सुमित्रा, रश्मि, शालिनी आदि मौजूद रही।

थाना बभनी पुलिस ने 02 को किया गिरफ्तार

दैनिक बुद्ध का संदेश सोनभद्र पुलिस अधीक्षक डॉ० यशवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी रोकथाम लगाने तथा घटनाओं के शीघ्र अनावरण व उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक-05.11.2022 को थाना बभनी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-17882022 धारा 323, 504, 506, 307 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. प्रेमचंद रौनियार पुत्र स्वर्गीय मंगरू रौनियार 2. सोनू रौनियार पुत्र प्रेमचंद रौनियार समस्त निवासीगण सागोबाध, थाना बभनी जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

करकोली में किसान गोष्ठी का हुआ आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश करमाधसोनभद्र। स्थानीय विकास खंड के करकोली ग्राम पंचायत भवन पर शनिवार को एगो स्टार कंपनी की तरफ से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें ट्रेटरी मैनेजर चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्स मैनेजर मोहित श्रीवास्तव ने किसानों को मिर्च, टमाटर व गेहूँ में लगने वाले रोगों एवं उन्नतशील बीजों एवं उनके उपचार के विषय में जानकारी दी। किसान विमलेश कुमार ने बीज शोधन करने की विधियों के विषय में जानकारी चाही जिस पर उन लोगों ने विस्तृत रूप से किसानों को बीज शोधन विधियों को बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान शिव शंकर पांडे एवं संचालन रमाशंकर मौर्य ने किया। उक्त अवसर पर श्याम जी मौर्य, संजय कुमार, वीरेंद्र कुमार, जितेंद्र शिवपूजन समेत दर्जनों किसान मौजूद रहे।

यह रहा निर्णायक मंडल

सुभाष जायसवाल, बालजीत कुमार, रामानंद उपाध्याय अतुल वर्मा, रणविजय सिंह, उमेश, रितेश यादव, अभिशौर्य, अनुपम कुंवर, शिखा सिंह ने खेल प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाई।

टमाटर के जूस को अपनी डाइट में करें शामिल, मिलेंगे स्वास्थ्य से जुड़े कई फायदे



अमूमन लोग टमाटर का इस्तेमाल सब्जी या सलाद में करते हैं, लेकिन इसका जूस के रूप में भी सेवन किया जा सकता है। कच्चे टमाटर का जूस अपने आप में एक सुपरफूड है। यह विटामिन-ए, विटामिन-के, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अगर आप टमाटर के जूस को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपको त्वचा, बाल और पूरे स्वास्थ्य से जुड़े फायदे मिल सकते हैं।

आइए इसके पांच प्रमुख फायदे जानें।

वजन कम करने में मिलेगी मदद: अगर आप रोजाना आधे या एक गिलास टमाटर के जूस का सेवन करते हैं तो यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ वजन घटाने में मदद कर सकता है। टमाटर के जूस में मौजूद सोडियम की कम मात्रा और उच्च फाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज करके वजन कम करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकता है। इसमें मौजूद कम कैलोरी भी इसे वजन नियंत्रित करने के सक्षम बनाती है।

शरीर से विषाक्त पदार्थ करे दूर

लिवर और किडनी हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ये दोनों अंग स्वस्थ अवस्था में रहें। टमाटर के जूस में मौजूद प्राकृतिक क्लोरीन लिवर और किडनी को ठीक से काम करने के लिए बढ़ावा दे सकता है और डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है। अगर आप अपने शरीर से विषाक्त पदार्थ दूर करना चाहते हैं तो रोजाना एक गिलास घर पर बने ताजे टमाटर के जूस का सेवन करें।

हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा होगा कम

कोलेस्ट्रॉल का अनियंत्रित स्तर हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए इसे नियंत्रित रखना जरूरी है। एक शोध के अनुसार, टमाटर का जूस पीने से हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है। यह फाइबर से भरपूर होता है, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

त्वचा के लिए है अच्छा

रोजाना टमाटर के जूस को पीने से त्वचा को बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं।

एक शोध के मुताबिक, टमाटर का जूस टैनिंग से छुटकारा दिलाने, त्वचा के बिगड़ते रंग (सदबहाष्पाद्यशङ्खडहलदबशठट) का मुकाबला करने समेत मुंहासों का इलाज करने में सहायक साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह तैलीय त्वचा के अतिरिक्त सीबम के स्राव को भी नियंत्रित करता है।

बालों को रखे मजबूत

टमाटर के जूस में मौजूद विटामिन्स और आयरन रूखे और बेजान बालों में चमक लाने के साथ-साथ उन्हें स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। यह सिर की खुजली और डैंड्रफ जैसी कई बालों की समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए अपने स्कैल्प और बालों में ताजा टमाटर का जूस लगाएं और 5-10 मिनट के बाद अपने सिर को शैंपू और पानी से धो लें।

स्टाइलिश बिकिनी पहन नेहा मलिक ने किया सेक्सी कर्व्स फ्लॉन्ट, फोटो से नजरें हटा पाना हुआ मुश्किल

भोजपुरी इंडस्ट्री की बॉल्ड और हॉट एक्ट्रेस में से एक नेहा मलिक इन दिनों अपनी तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। एक्ट्रेस जब भी अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर



शेयर करती हैं तो वो तेजी से फैंस के बीच वायरल होने लगती हैं। हाल ही में नेहा मलिक ने अपने लेटेस्ट स्टनिंग फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जिसमें अभिनेत्री का किलर अवतार देख कर फैंस अपना दिल हार गए हैं। एक्ट्रेस नेहा मलिक भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरों से इंटरनेट पर कहर बरपा दिया है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस नेहा मलिक एक से बढ़कर एक सेक्सी अंदाज में पोज देते हुए इंटरनेट का तापमान बढ़ा रही हैं। एक्ट्रेस नेहा मलिक ने लाइट ब्राउन और चेक में क्रॉप टॉप पहना हुआ है। जिसमें वो अपना परफेक्ट कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक्ट्रेस नेहा मलिक के इस स्टाइलिश बिकिनी लुक को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। ओपन हेयर और लाइट मेकअप कर के नेहा मलिक ने अपने इस आउटलुक को कॉप्लीट किया है। एक्ट्रेस हमेशा अपने बॉल्ड फैशन और स्टाइलिश लुक्स से फैंस को हर बार अपना कायाल कर देती हैं।

करीब 27 साल बाद कैमरे का सामना कर रही हूँ: मीनाक्षी शेषाद्रि



बॉलीवुड अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि हाल ही में एक सिंगिंग रियलिटी शो में दिखाई दीं और उन्होंने लगभग 27 साल बाद भारत में कैमरे का सामना करने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की। 58 वर्षीय अभिनेत्री, जिन्हें हमेशा दामिनी, हीरो, दिलवाले और कई अन्य फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है, न केवल एक उत्कृष्ट अभिनेत्री बल्कि एक अद्भुत नर्तकी भी हैं। शो में होने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, मैं शुरु से ही इंडियन आइडल की उत्साही प्रशंसक रही हूँ। आज, यह बहुत खास महसूस हुआ क्योंकि मैं अतिथि नहीं थी, बल्कि इसलिए कि यह पहली बार है। मैं लगभग 27 साल के अंतराल के बाद भारत में कैमरे का सामना कर रही हूँ। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो जब मैं सेट पर थी तो थोड़ी नर्वस थी लेकिन अंत में घर जैसा महसूस होता था। मीनाक्षी ने आगे साझा किया कि वह हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी सहित सभी जजों की फैन हैं लेकिन वह मेजबान और गायक आदित्य नारायण की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। सभी जज बहुत सक्षम, स्मार्ट और अच्छे इंसान हैं। लेकिन मैं आदित्य का प्रशंसक हूँ। शो में प्रतिभागियों की प्रशंसा करते हुए, उन्होंने कहा, हर एक दूसरे से बेहतर है। वे सभी इतने प्रतिभाशाली हैं और खूबसूरती से गाए गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि देश के कोने-कोने से और एक घंटे के भीतर एक पैकेज में महान आवाजों की दावत हो रही है। इंडियन आइडल 13 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होता है।

पालतू कुत्ते को खोने के कारण टीना दत्ता को जाना पड़ा बिग बॉस के घर से बाहर



बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट टीना दत्ता को शो के हालिया एपिसोड में कुछ देर के लिए घर से बाहर जाना पड़ा क्योंकि उनके पालतू कुत्ते रानी का निधन हो गया था। एपिसोड में देखने को मिला कि बिग बॉस टीना को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं। कन्फेशन रूम में पहुंचने पर, टीना को सूचित किया जाता है कि बाहरी दुनिया में उसके जीवन में कुछ हुआ है और उसे कुछ समय के लिए घर छोड़ना होगा। इस खबर को सुनकर टीना चौंक जाती हैं। टीना को पता चल जाता है कि उनके पालतू कुत्ते रानी का निधन हो गया। अभी पिछले हफ्ते ही बिग बॉस ने टीना को उनके पालतू कुत्ते की तबीयत खराब होने की जानकारी भी दी थी। जब टीना घर में वापस आई, तो शालीन ने उसे भावनात्मक समर्थन देते हुए देखा और पूछा कि क्या हुआ, जिस पर टीना कहती है, मेरे साथ बाहर आओ। मुझे बाथरूम जाना है। टीना ने कहा, बिग बॉस ने मुझे बताया कि मेरे कुत्ते रानी की आज मृत्यु हो गई। दुखद बात यह है कि मैं उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सकती।

लंबे समय तक बैठे रहने से सेहत को हो सकते हैं ये पांच बड़े नुकसान



ऑफिस में लगातार आठ से 10 घंटे तक लगातार बैठकर काम करने से आपकी सेहत दिन-दिन खराब होती जा रही है। लोग घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर बगैर ब्रेक के काम कर रहे हैं। इस कारण वो सिर से लेकर पैरों तक कई बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। आज हम आपको लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से स्वास्थ्य को होने वाले पांच नुकसान के बारे में बताते हैं।

हृदय की समस्याएं: विशेषज्ञों के अनुसार, जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनमें दिल का दौरा पडने या स्ट्रोक से पीड़ित होने का लगभग 147 प्रतिशत जोखिम अधिक होता है। लॉफबोरो विश्वविद्यालय और लीसेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा 2011 में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते रहते हैं, उनमें हृदय रोगों से मृत्यु में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की समस्या और कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी बढ़ता है।

इम्यून सिस्टम पर पड़ता है असर: लंबे समय तक बैठकर काम करने से आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम करना बंद कर देता है। एक्सरसाइज शरीर की कोशिकाओं को मजबूती देकर इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। इसलिए लंबे समय तक बैठकर जाँच करने वाले लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है।

वजन बढ़ना: जब आप चलते-फिरते रहते हैं तो आपकी मांसपेशियां लिपोप्रोटीन लाइपेस जैसे अणु छोड़ती हैं, जो आपके शरीर में मौजूद फैट, कैलोरी

सिद्धार्थनगर का सबसे बड़ा प्रिंटिंग पब्लिकेशन हाउस... प्रिंटिंग/कॉपी/डिजिटल/ऑनलाइन

बुद्ध पब्लिकेशन

ऑफसेट एण्ड प्रिन्टर्स

नी.एस.टी. मिल बुक/फार्म • कार्यालय टिकट • स्कूल कार्ड/फार्म/डायरी • परपेटुअल • कलर पीपर्स • कलर प्रिंटिंग कार्ड • टीकर टैट पीप • बैंक फार्म

टिकट-टीरो एजेंसी जीवद नम्बरपुर-सिद्धार्थनगर (उ.प्र.)

0795951917, 9453324459

और शुगर को संशोधित करने में सहायता करती हैं। लेकिन जब आप केवल बैठे रहते हैं, तो ये अणु शरीर के अंदर ही रह जाते हैं, जिससे वजन बढ़ता है। इसलिए जो लोग अधिक समय तक बैठकर काम करते रहते हैं, उनका वजन भी ज्यादा होता है।

गर्दन, पीठ और कंधे में दर्द या जकड़न: गर्दन, पीठ, कंधे और घुटनों समेत शरीर के कई अंगों में जकड़न और असहनीय दर्द होने लगता है क्योंकि आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। ऐसे में आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। लगातार बैठने से आपकी पीठ पर भी भारी दबाव पड़ता है, खासकर तब जब आप दिन भर खराब मुद्रा में बैठे रहते हैं। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो पोस्टुरल सिंड्रोम का खतरा बढ़ सकता है।

दिमाग पर असर: लोगों को लगता है कि लंबे समय तक बैठकर काम करने से सिर्फ शरीर पर ही असर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टडी के मुताबिक, लंबे समय तक बैठे रहने से दिमाग में नई मेमोरीज बनाने वाले पार्टिकल्स पर बुरा असर पड़ता है। इससे आपकी यादशत भी कमजोर होती है। इसके अलावा हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या होती है, जो आपके दिमाग की समस्या में असर डालते हैं।